



आमन लेखनी



किडनी डिजीज को लेकर ना बरतें जरा भी लापरवाही....

जब चेहरे पर नजर आए डलनेस.....

वर्ष : 10

अंक : 96

लखनऊ, 15 मार्च, शुक्रवार 2024

पृष्ठ : 08

मूल्य : 2.00 रुपए

मौसम अधिकतम तापमान 18.c न्यूनतम तापमान 12.c

बाजार

सोना 5848/ 9
चांदी 75.50/ 9

सैंसेक्स 72,085.63
निफ्टी 21,853.80

संक्षिप्त समाचार

किसानों के दिल्ली कूच को लेकर यातायात परामर्श जारी

नई दिल्ली, पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल यादव ने बताया कि असुविधा होने पर वाहन चालक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की। गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने बुधवार को परामर्श जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बृहत्समितियों को नोएडा-दिल्ली मार्गों पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली से सटी जिले की सभी सीमाओं पर अवरोध लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा सघन जांच की जाएगी जिस कारण नोएडा-दिल्ली सीमा वाले मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ने की स्थिति में आवश्यकतानुसार मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि असुविधा होने पर वाहन चालक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की।

10 साल देश के किसानों के लिए साबित हुए 'अन्याय काल'

सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी कांग्रेस की 5 गारंटी : राहुल एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी भारतीय गठबंधन सत्ता में आया तो वह रकिसानों को आवाज बनें और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाएंगे। देश के ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सरकारी नौकरी, सेना और पुलिस में जाते थे। अब सारी सरकार सेना में 'अभिव्यक्ति' लेकर आ गई है। सारे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दिया गया है। यानी देश की करीब 90% आबादी के लिए सारे रस्ते बंद

गुजरात के एक स्कूल में 10वीं की परीक्षा दे रही छात्राओं से हिजाब उतारने को कहा गया: अभिभावक

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

भरुक। गुजरात के एक विद्यालय में दसवीं कक्षा की परीक्षा दे रही छात्राओं में से कुछ के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र की प्रशासक (प्रभारी) ने उनकी बच्चियों को हिजाब उतारने के लिए बाध्य किया। इस आरोप के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। अभिभावकों के मुताबिक, भरुक जिले के अंकलेश्वर में निजी लॉयर्स स्कूल में बुधवार को गणित की परीक्षा शुरू होने से पहले यह घटना घटी। हिजाब उतारने के आरोप के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने बृहत्समितियों को परीक्षा केंद्र की प्रशासक इलाक़ में परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड ही 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करता है। एक अभिभावक ने संवाददाताओं से कहा, स्कूल की प्राचार्या और अन्य कर्मियों ने परीक्षा शुरू होने से पहले मेरी बेटी समेत कई छात्राओं को हिजाब उतारने के लिए कहा। मेरी बेटी घर लौटने के बाद तीन घंटे तक रोई। कल ऐसा कम से कम 12 लड़कियों के साथ हुआ। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस हरकत में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बोर्ड ने लॉयर्स स्कूल को अपने एक परीक्षा केंद्र के

बोझ हैं सपा और कांग्रेस, इन्हें उठाकर देश से बाहर फेंकना होगा : सीएम योगी

सीएम ने जनता से पूछा, क्या सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 6 लेन सड़कें बन पातीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को किया संबोधित

अयोध्या को सीएम ने दी 1,090 करोड़ की 411 विकास परियोजनाओं की सीमा

विराट किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र

न सुरक्षा दे पाते हैं न रोजगार, फिर सपा और कांग्रेस को दोने का क्या फायदा : योगी

22 जनवरी से 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीरामलला के किये दर्शन : मुख्यमंत्री

कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस न आस्था का सम्मान करते हैं, न आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं। न तो गरीब को अन्न दे सकते हैं, न आवास, न दवाई, न पढ़ाई की व्यवस्था ही कर सकते हैं। न तो बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा ही दे सकते हैं। ऐसे में हमें भी इन्हें सिर पर बोझ बनाकर ढोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, इस बोझ को उतारकर देश से बाहर फेंक देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1,090 करोड़ की 411 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी विराट किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के समापन समारोह में भी शामिल हुए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र वितरित किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक



1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीरामलला के दर्शन किये हैं। ये प्रभु की ही कृपा है कि चहुं ओर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुगम एवं सुरक्षित दर्शन-पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यही नहीं अयोध्या वासियों ने भी आतिथ्य सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। कुछ लोग कहा करते थे कि यहां परिदा भी

पर नहीं मार पाएगा, अब तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्रीरामलला के नव्य-भव्य-दिव्य मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो एयरपोर्ट, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बन पातीं, क्या प्रदेश में सुरक्षित माहौल बन पाता क्या। आज

अगर पूरी दुनिया अयोध्या आने के लिए उतावली दिख रही है, तो क्या सपा और कांग्रेस के कारण? मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को अपना जन्म और जीवन धन्य मानना चाहिए। अयोध्या 32 हजार करोड़ से अधिक के कार्यों से विकास के नये मार्ग पर बढ़ रही है। यहां नई उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं, नये होटल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव को कुछ लोग औपचारिकता कहते थे, मगर हमने तब कहा था कि ये अयोध्या में भगवान श्रीराम के आगमन के पहले की तैयारी है। उन्होंने अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की प्रशंसा करते हुए अयोध्या वासियों ने से उनके लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के साथ ही यहां मल्टीलेवल पार्किंग की किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। हम सूर्य वंश की इस राजधानी को सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यहां 40 मेगावाट के पैनल लगाए जा रहे हैं।

लोकार्पित होने वाली प्रमुख परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने बिगिनीयापुर एवं हंसराजपुर समगढ़ा के मध्य गोमती नदी के बिगिनीयापुर घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य, 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, ग्रामसभा-साहसीपुर से तिवारीपुर होते हुए धारूपुर संपर्क मार्ग, दर्शननगर-रसूलाबाद-एमोघाट मार्ग के किमी 1 से 13 तक नवीनीकरण, महाराजगंज, हैदरगंज, रुदौली एवं रौताही थाने में हॉस्टल, बैंक एवं विवेचना कक्ष, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सोहावाट में 100 बेड का छात्रावास, बिल्हर घाट-एमो घाट-तारन-गोसाईगंज मार्ग का किमी 1 से 12 तक नवीनीकरण, जलालपुर रामपुर भगन-तारन अहिरौली मार्ग का नवीनीकरण, 60 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण पेयजल परियोजना, मां कामाख्या नगर पंचायत कार्यालय भवन, मां कामाख्या, भरतकुंड-भदरसा, कुमारगंज, गोसाईगंज एवं रुदौली नगर पंचायत में एम.आर.एफ. सेंटर का लोकार्पण किया।

शिलान्यास होने वाली प्रमुख परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने सरयू नदी जलापूर्ति स्रोत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना का फेज-1, अमृत-2.0 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रुदौली पेयजल पुनर्गठन परियोजना, 12,000 वर्गमीटर पर पुलिस प्रशासनिक भवन/कंट्रोल रूम, श्री रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह, रायबरेली-अयोध्या मार्ग नाका हाईवे से नाका चुंगी तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुहृदीकरण, भक्तिपथ से श्रीराम जन्मभूमि पथ तक वाया हनुमान गढ़ी मार्ग, 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, राजर्षि दशरथ स्वस्थानी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया।

सीए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं : अनुराग ठाकुर

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

हमीरपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहत्समितियों को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम एक ऐसा कानून है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देगा, किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए, 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादस्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर,

2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, सीएए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। हमीरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर

निशाना साधा और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा झूठा करार दिया। आप प्रमुख द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के कार्यान्वयन को भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा, केजरीवाल इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक शिक्षित व्यक्ति भी भ्रितियां फैलाने का काम करता है। केजरीवाल ने बुधवार को कहा था, इस कानून के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं।

पीएम मोदी ने 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का किया शिलान्यास

1 लाख वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा लोन

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (फेज-4) के दो अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जो मोदी को गालियां देने के लिए घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एक जुट हो गया है। इंडी गठबंधन की विचारधारा है- कुशासन और कल्पना। मोदी की विचारधारा है- जनकल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से



मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। स्वनिधि योजना को वजह से रेहड़ी-फुटपाथ-ठेले पर काम करने वालों की कमाई बढ़ गई है। खरीद-बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से मद्द मिलने में भी

ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, रजिस्ट्रारों को किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और पूजा भी है...जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था कि अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। मोदी आपको गारंटी लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आज दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्रॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का भी शिलान्यास हुआ है।

18,626 पन्नों का ड्राफ्ट, एक मतदाता सूची, कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'वन नेशन वन इलेक्शन (ओएनओई)' पर एक व्यापक रिपोर्ट सौंपी। उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार को एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र विकसित करना चाहिए। रिपोर्ट में 18,626 पृष्ठ हैं और यह 2 सितंबर, 2023 को अपनी स्थापना के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ



व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। पैनल द्वारा दिन में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया है, पार्टियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर,

समिति का सर्वसम्मत विचार था कि एक साथ चुनाव चुनावी प्रक्रिया और समय शासन में मूलभूत परिवर्तन लाएगी। समिति ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव को सक्षम बनाने

के लिए अनुच्छेद 324 ए की शुरुआत की सिफारिश की। इसमें सुझाव दिया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए और इसके पूरा होने के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले इस पैनल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष करपय और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं।

जेवर मेरी राजनीति का नहीं वरन कार्य नीति का गढ़ है: धीरेन्द्र सिंह

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, जेवर विधानसभा के कस्तूरबा जेवर में स्थित जैन इंटर कॉलेज ने भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ तथा शिक्षण प्रकोष्ठ व प्रयुक्त प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने शुभारंभ करते हुए कहा कि हम उस संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है तथा हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जहां का दृष्टिकोण मानवतावादी है। हम इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसे पूरी

दुनिया के सामने विगत 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रस्तुत भी किया है। यह मेरी राजनीति का नहीं वरन कार्य नीति का गढ़ है। आज भारत की विदेश नीति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का डंका रास्ता जेवर से बजाया है। आज किसी भी देश की ताकत नहीं कि वह हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख सके। आज अगर उत्तर प्रदेश का विकास हो तो उसका रास्ता जेवर से होकर जाएगा। तत्कालीन सरकार परिवारों की सरकार थी, जहां बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिशन और विजन के साथ कार्य कर रही है।

नागरिकता संशोधन कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा मुस्लिमों के बिलकुल खिलाफ नहीं, अमित शाह ने विपक्ष को सीए पर दिया करारा जवाब

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और केंद्र देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करने के संयुक्त अधिकार से कोई समझौता नहीं करेगा। शाह की टिप्पणी सरकार द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद आई है। इस रद्द करना असंभव है और सरकार इसके बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाएगी। विपक्षी इंडिया गुट के बारे में पूछे जाने पर, विशेष रूप से एक कांग्रेस नेता ने कहा कि वे सत्ता में आने पर कानून को रद्द कर देंगे, गृह मंत्री ने कहा



कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है। शाह ने कहा यहां तक कि कठक गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए बीजेपी पार्टी द्वारा लाया गया है, और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम इसके बारे में पूरे देश में जागरूकता फैलाएंगे। राष्ट्र ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले।

अमित शाह पर असंवैधानिक आरोप

"सीएए असंवैधानिक" होने की आलोचना को खारिज करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा वे हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस अनुच्छेद में दो खंड हैं। यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

नहीं करता है। यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है। यह उन लोगों के लिए एक कानून है, जो विभाजन के कारण बने रहे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों ने भारत आने का फैसला किया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि सीएए को आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है, शाह ने कहा कि कानून की अधिसूचना में कोई बंधन के कारण देरी हुई। गृह मंत्री ने कहा सबसे पहले मैं समय के बारे में बात करूंगा। राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल सहित सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लिप्त हैं, इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और

अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदन में पारित किया गया था। इसमें कोई बंधन के कारण देरी हुई। भाजपा ने चुनाव में जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था। गृह मंत्री ने कहा नियम अब औपचारिकता बन गए हैं। समय, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है। अब, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे बेनकाब हो जाएं। सीएए किसके लिए कानून है पूरे देश और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह वास्तविकता बन जाएगी।

देश को तीसरी अर्थव्यवस्था तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

युवाओं को आधुनिक तकनीकों एवं उद्योगों के अनुरूप कोर्स संचालित कर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है - मंत्री कपिल देव अग्रवाल

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व व प्रभावी मार्गदर्शन में प्रदेश के सवागोण विकास में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान परिदृश्य में नित्य प्रति हो रहे प्रौद्योगिकी प्रगति एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यू एज कोर्सिंग के ज्ञान से परिपूर्ण कुशल तथा प्रशिक्षित युवा शक्ति को रोजगारपरक व आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा तथा उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल तथा व्यावसायिक

शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में प्रदेश सरकार, प्राविधिक विश्वविद्यालय व निजी क्षेत्र के संस्थाओं के मध्य परामर्शिक सहयोग की भावना के साथ 10 समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुये।

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं के स्कूल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। देश-विदेश में उत्तर प्रदेश के मैनपावर पर भरोसा जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा रहा है। उन्होंने एमओयू करने आये कर्मचारियों



के अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह उनका सहयोग करेगी। एमओयू वचुवल इनटर्नशिप कार्यक्रम, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स सहित विविध प्रकार के क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो आज के

प्रौद्योगिकी परिदृश्य में कैरियर डेवलपमेंट और नवाचार के लिये महत्वपूर्ण हैं। एमओयू के फलस्वरूप 878 करोड़ रुपये के कौशल विकास व प्रशिक्षण प्राप्त होंगे जिसके फलस्वरूप तकनीकी एवं कौशल क्षेत्र से जुड़े लगभग 17 लाख 11 हजार छात्र व

छात्राएँ एवं युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के गुणवत्ता को बेहतर किया गया है। आज प्रदेश की दो यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेडेशन मिल चुका है। युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के देश को तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों एवं उद्योगों के

अनुरूप कोर्स संचालित कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े रहा है। इसी के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुये हैं। ये कम्पनियाँ लगभग 17 लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) से प्रदेश की युवा शक्ति को उद्योगों की मांगों के अनुरूप तकनीकी क्षेत्र एवं कौशल विकास के क्षेत्र में शिक्षित व प्रशिक्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाये जाने में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री सलाहकार के.वी. राजू ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रभावी तथा सकारात्मक प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने अवैध देसी तमंचा क साथ यात्री को किया गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर गुरवार को एक यात्री के पास से सीआईएसएफ को 12 बोर का अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने यात्री से पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लेते हुए सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। अमौसी एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के उप निरीक्षक शुभ आलम के मुताबिक गुरवार सुबह स्कैनिंग मशीन - 5 पर वह स्क्रीनर के तौर पर तैनात था। तभी लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली ईईडिगो विमान की यात्रा के लिए सुबह करीब 7:25 बजे एक यात्री बैग लेकर पहुँचा। जहाँ उसका बैग स्कैनिंग करने पर उसके अंदर प्रतिबंधित वस्तु नजर आई। बाद

में जब बैग की जांच की गई तो उसके अंदर 12 बोर का एक अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ। इस पर सीआईएसएफ जवानों ने यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जहाँ उसने अपना नाम शाहजहाँपुर जिले के पुवाया थानान्तर्गत जेवा गाँव निवासी सुरजीत कुमार पांडेय बताया उसने बताया कि वह लखनऊ से हैदराबाद जा रहा था। सीआईएसएफ जवानों ने जब उससे तमंचे के बारे में जानकारी करने की कोशिश की तो यात्री कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इसके बाद सीआईएसएफ ने बरामद तमंचे सहित उसे सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सीआईएसएफ उप निरीक्षक शुभ आलम की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर सुरजीत कुमार पांडेय को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है।

विवाहिता ने ससुरालीजनों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप, रिपोर्ट दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। सरोजनीनगर के मकका खेड़ा, गहरु निवासी अंकिता यादव ने मोहनलालगंज के कोराना निवासी अपने पति कौशलदेव यादव, सास कुसमा देवी, ससुर सूर्यभान यादव, देवर धर्मदेव, नन्दरीना यादव और नंदीई मनोज यादव के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और धमकाने के साथ ही दहेज उत्पीड़न की सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अंकिता के मुताबिक उसकी शादी 28 फरवरी 2017 को कौशलदेव के साथ हुई थी। साल भर बाद अंकिता ने एक पुत्री को जन्म दिया। अंकिता का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद से ही उसका पति कौशलदेव आए दिन शराब पीकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। आरोप है कि इस दौरान उसने वीरता से दहेज में 5 लाख रुपये की मांग की और तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगा।

यही नहीं आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर कौशलदेव के साथ उसकी मां कुसमा, पिता सूर्यभान, छोटा भाई धर्मदेव, बहन रीना यादव और बहनोई मनोज यादव भी अंकिता के ऊपर दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर पीड़िता के साथ गाली गलौज कर उसकी पिटाई भी की जाती रही। करीब साल भर बाद कौशलदेव और उसके परिवार वालों ने अंकिता को मारपीट का घर से बाहर निकाल दिया। बाद में सूचना पाकर पहुंचे अंकिता के मायके वाले उसे अपने घर ले गए। तब से वह अपने मायके में ही रह रही है। अंकिता का कहना है कि ससुराल वाले आए दिन फोन पर धमकी देते हैं कि अगर पुलिस से शिकायत की तो झूठे आरोप में फंसा दिया जाएगा। काफी परेशान होकर अंकिता ने इसकी शिकायत हजरतगंज स्थित महिला थाने में की। जिसके बाद सरोजनीनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा का लोकार्पण किया

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोण्डा में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा का लोकार्पण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नामकरण महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बक्श सिंह के नाम पर किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में महाराजा देवी बक्श सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा देवी बक्श सिंह का योगदान भी उल्लिखित किया जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ी को उनके इतिहास से प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री इस अवसर पर गोण्डा के शहीद-ए-आजम भगत सिंह थामसन इन्टर कॉलेज परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में जनपद के विकास से सम्बन्धित 1,689 करोड़ रुपये की 422 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के



उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रतीकम्बक चाभी, चेक वितरित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्रभु श्रीराम के विराजमान होने के बाद आज गोण्डा में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोण्डा अयोध्या से सटा हुआ जिला है। अयोध्या में होने वाले विकास का सर्वाधिक लाभ गोण्डा को ही होगा। अयोध्या में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बन

चुका है। श्रावस्ती में वायु सेवा शुरू हो गई है। गोण्डा को अयोध्या से 4-लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। चैरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसमें गोण्डा जनपद भी सम्मिलित है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास आज किया गया है, उनका लाभ गोण्डा की जनता को मिलेगा और जनपद का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा

देश बदल चुका है। हम लोग आज नए भारत में रह रहे हैं। देश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। भारत आज पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारा संकल्प विकसित भारत है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश जरूरी है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोण्डा भी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए वनटांगिया समुदाय को आजादी के बाद पहली बार डबल इंजन की सरकार ने न्याय देने का कार्य किया है। विकसित भारत के लिए 04 दशकों से लम्बित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गोण्डा पहले की अपेक्षा काफी साफ-सुथरा हो गया है। यहां के जनप्रतिनिधि भी हमेशा गोण्डा के विकास की ही बात करते हैं।

होली-ईद और रमजान त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी, डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किए आदेश



अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। देश में सीएए लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को चेताया है। वहीं आज डीजीपी ने प्रदेश में होली-ईद और रमजान त्योहार को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने

कहा कि संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी की जाएगी और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने विभिन्न समुदायों से उनके त्योहार को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही अधिकारियों को होली और रमजान पर्व पर प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है।

होली से पहले ही दौड़ेगी लखनऊ-पटना वंदे भारत

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। गोमतीनगर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्च से दौड़ेगी। शुक्रवार को छोड़कर शेष छह दिन दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रेलवे ने किराया तय कर दिया है। साथ ही रेलवे ने गुरवार से इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी। ट्रेन नंबर 22346 वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ से पटना का एसी चैयकार का किराया 1465 रुपये होगा। इसमें 308 रुपये कैटरिंग चार्ज भी शामिल है। इसी तरह एक्जक्यूटिव क्लास का किराया 2700 रुपये होगा। इस किराए में 369 रुपये भी शामिल है। इस ट्रेन से लखनऊ से वाराणसी का चैयकार का किराया 865 रुपये और एक्जक्यूटिव क्लास का किराया 1680 रुपए होगा। गोमतीनगर-पटना वंदे भारत का अयोध्या धाम जाने का किराया लखनऊ-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से कम होगा। लखनऊ-गोरखपुर वंदे भारत का अयोध्या धाम



का एसी चैयकार का किराया 725 रुपये और एक्जक्यूटिव का किराया 1210 रुपये है। गोमतीनगर-पटना वंदे भारत से अयोध्या धाम का एसी चैयकार का किराया 545 रुपये और एक्जक्यूटिव का 1040 रुपये है। लखनऊ से आरा का एसी चैयकार का किराया 1365 और एक्जक्यूटिव का किराया 2485 रुपये होगा।

पटना-लखनऊ का किराया ज्यादा

वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना से लखनऊ आते हुए किराया अधिक होगा। पटना से लखनऊ का एसी चैयकार का किराया 1540 रुपये और एक्जक्यूटिव क्लास का किराया 2565 रुपये होगा।

फर्जी, कूटचित तरीके से जमीन का क्रय विक्रय कर धोखाधड़ी करने का आरोप, मुकद्दमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। बिजनौर के रहीमाबाद स्थित एयरपोर्ट के पास रहने वाली नन्ही देवी ने मोहनलालगंज के गौरा निवासी मंजु सिंह, कृष्णा नगर के इंदरलोक कॉलोनी, गणेश नगर निवासी राजेंद्र कुमार सिंह, रायबरेली रोड स्थित एल्टिडको उद्यान निवासी वर्षा सिंह, आलमबाग के चंद्र नगर निवासी राकेश कुमार, सीतापुर रोड स्थित प्रीति नगर निवासी महमूद अहमद और एक अज्ञात महिला के खिलाफ फर्जी, कूटचित तरीके से जमीन का क्रय विक्रय कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नन्ही देवी का कहना है कि उसने 3 मई 2017 को कृष्णा नगर के पंडित खेड़ा निवासी शिव बालक से भूमि खसरा संख्या 468 में करीब 4000 वर्ग

फीट जमीन का रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। आरोप है कि बाद में इस जमीन को धोखाधड़ी और जालसाजी करके बिना भुगतान किए राजेंद्र कुमार ने 23 अक्टूबर 2020 को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा ली। इसी तरह धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेते हुए मंजु सिंह ने उक्त धूखंड में से 2000 वर्ग फीट का बैनामा 23 अक्टूबर 2020 को अपने पक्ष में कर लिया। आरोप है कि इन विक्रय पत्रों के निष्पादन के साथ ही राजेंद्र कुमार सिंह और मंजु सिंह ने साजिश के तहत नन्ही देवी को विश्वास में लेकर 3 मई 2017 को इसकी मूल प्रति हासिल कर ली थी। दोनों विक्रय पत्रों को धोखाधड़ी और जालसाजी के कारण उन्हें निरस्त करने के लिए पीड़िता ने एक निरस्तीकरण वाद भी दायर किया, जो अभी न्यायालय में लंबित है। आरोप है कि राजेंद्र कुमार

सिंह और मंजु सिंह ने बाद में किसी अज्ञात महिला को नन्ही देवी बताते हुए उसके स्थान पर खड़ा कर 27 जनवरी 2021 को वर्षा सिंह के नाम बैनामा करा दिया है। आरोप है कि इस साजिश में राकेश कुमार के साथ महमूद अहमद बाकायदा गवाह के रूप में शामिल रहे। आरोप लगाया है कि राजेंद्र कुमार सिंह और मंजु सिंह ने यह सब 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर किया। इतना ही नहीं इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 18,45,000 रुपये का बैंक ऋण भी प्राप्त कर लिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी होने पर नन्ही देवी ने इसकी शिकायत अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के आदेश पर बिजनौर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जांच शुरू कर दी है।

कुएँ में गिरा गोवंश, पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। बृहस्पतिवार को घास चरते-चरते अचानक गहरे कुएँ में एक गोवंश गिर गया। ग्रामीणों को जानकारी होने पर उन्होंने इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीणों की मदद से निराश्रित गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल कर उसको जान बचाई गई। वहीं मौके पर वन विभाग की टीम न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी रोष है। रहीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भतोइया व भिममाखेड़ा के बीच निराश्रित गोवंश अचानक घास चरते चरते आम के बाग में स्थित 25 फीट गहरे कुएँ में जा



गिरा। जिसकी सूचना थाने पर मिलते ही एसओ अनुभव सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर हेड कास्टेबल तारीक अंसारी व कास्टेबल प्रेम नारायण समेत टीम को मौके पर भेज कर पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब दो घण्टे की कड़ी मशकत के बाद गोवंश को

सकुशल कुएँ से बाहर निकाला गया। बताया कि गोवंश पूरी तरह से सुरक्षित है। चिकित्सकों को सूचना देकर डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार कराया गया। रहीमाबाद एसओ अनुभव सिंह व उनकी टीम के सराहनीय कार्य की आम जनमानस द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

सद्विध परिस्थितियों में युवती का शव घर में दुपट्टे से लटकता मिला

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। सद्विध परिस्थितियों में युवती का शव दुपट्टे के सहारे छत की बल्ली से लटकता मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई जनपद के अतरोली कटिगरा निवासी परागी लाल की पुत्री प्रीती यादव (22) करीब तीन सालों से अपनी नानी सरस्वती की बहन मुन्नी देवी के घर पर रहे रहीं थीं। वहीं से गहदो में स्थित एक निजी शिवाजी निकेतन मेंटैसरी स्कूल में बच्चों को पढाती थीं। बुधवार शाम को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था। बृहस्पतिवार सुबह जब प्रीती कहें

दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने इधर-उधर ढूँढा तो वह छत की बल्ली से दुपट्टे के सहारे कमरे में झूलती मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस से शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारों के अनुसार मृतक प्रीती काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। जिसका इलाज चल रहा था। मृतका के परिवार में परिजनों का रो रो कर खुरा हाल है। इस संबंध में रहीमाबाद एसओ अनुभव सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।



अमन लेखनी समाचार

लखनऊ, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज लखनऊ में स्वीप योजना के अंतर्गत ई एल सी क्लब (मतदाता साक्षरता क्लब) की वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें लखनऊ जिले के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों के लगभग 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। वर्कशॉप का संचालन नोडल शिक्षक कृष्ण लाल शर्मा,

अतिक्रमण का विरोध करना महिला को पड़ा भारी, लाठी डंडे से कौपिताई

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। बंधरा के रहीम नगर स्थित गोड़वा गांव निवासी महिला गोता ने गांव के ही सुनीत, रंजीत और सुनीत की पत्नी के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोता का कहना है की बोती 21 फरवरी को सुनीत, रंजीत और सुनीत की पत्नी से रास्ते में किए गए अतिक्रमण का विरोध करता था तो तीनों लाठी डंडे लेकर उसके घर पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसका बेटा मिशेलेश बचाने दौड़ा तो आरोपियों ने उससे भी गाली गलौज कर बेरहमी से मारा पीटा। जिससे दोनों चोटिल हो गये। फिलहाल इस मामले में बंधरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



संक्षेप

अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर चालक की मौत

उन्नाव। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक ट्रक चालक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो चला रहे चालक गम्भीर रूप से घायल हो गया। एक्सिडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त होने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी और शव का पोस्टमार्टम कराया है। ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कानपुर नगर के थाना बिधुनू क्षेत्र के कटुई गांव निवासी सौरभ 26 पुत्र हरिनारायण कुशावाहा बुधवार की देर रात ऑटो से दही चौकी की तरफ से आ रहा था। वर्कशॉप मोड़ के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक लगेते ही सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया राहगीरों ने हादसे की जानकारी दही थाना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एंबुलेंस की मदद से भर्ती कराया। इमरजेंसी मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। उधर ट्रक को कब्जे में ले लिया। साथ ही पास में मिले मोबाइल से संपर्क कर घटना की जानकारी परिजनों को दी। गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने शव देखा तो रो रो कर बुरा हाल होता रहा। दही थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने बताया कि परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर एक की मौत, दो घायल



ACCIDENT!

औरस, उन्नाव। थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरस रहीमाबाद रोड पर भुरकुंडी से हाजीपुर गोसा जा रहा ट्रैक्टर जो अभी वह नंदोली पुल के पास ही पहुंचा था कि अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया वही जिसमें सवार सरदार पुत्र गयादीन निवासी हाजीपुर गोशा शिव सिंह पुत्र शीतला व बनवारी पुत्र निहाल निवासी भुडकुंडी थाना औरस घायल हो गए थे राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरस में भर्ती कराया गया था जहां से शीतला व बनवारी को जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया था वही रास्ते में ही बनवारी की मौत हो गई।

ट्राई साइकिल की टक्कर से मासूम बच्चे की मौत



अमन लेखनी समाचार

मौदा, हमीरपुर ट्राई साइकिल ने मासूम बच्चे को टक्कर मार दी जिससे बच्चे की मौत पर ही मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्यवाही

सचिव एवं ग्राम प्रधानों की एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

अमन लेखनी समाचार

सुमेरपुर, उन्नाव। विकास खण्ड के बाबू जयशंकर गया प्रसाद महाविद्यालय छांछीराई खेड़ा सुमेरपुर में बृहस्पतिवार 14 मार्च को समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव एवम् ग्राम प्रधानों की एक दिवसीय संगोष्ठी एवम् उन्मुखीकरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि योगेश बाजपेई एवम् विशिष्ट अतिथियों में बीडीओ डॉ संतोष श्रीवास्तव, सीडीपीओ दिनेश प्रजापति, बीईओ अखिलेश वर्मा एवम् समाज सेवी बैजनाथ सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सिंह आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रबंध समिति एवम् ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियों को अवगत कराया जाना



था। कार्यक्रम का शुभारंभ कम्पोजिट सुमेरपुर की छात्राओं ने मां सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से आए हुए लोगों का स्वागत किया। आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करना, विद्यालय में नामांकित बच्चों का शिक्षकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना, ग्राम के सभी बच्चों और उनके माता पिता

अभिभावकों का आधार बनवाना, बच्चों और उनके माता पिता अभिभावकों के आधार की फोटोकॉपी शिक्षकों को उपलब्ध कराना। सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को अपना अपना बैंक खाता आधार से सीडेंड करने के लिए प्रेरित करना। ग्राम प्रधान एवम् विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा और उसके अभिभावक डीबीटी संबंधित दस्तावेज के कारण वंचित न रहें। विद्यालय प्रबंध समिति

एवम् ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां हैं। कार्यक्रम का संचालन एआरपी लोकेश मिश्रा और अशोक सूर्यवंशी ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी बैजनाथ सिंह, एडीओ पंचायत हरिओम तिवारी, पीएचसी अधीक्षक नरेंद्र कृष्ण, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सिंह, ब्लॉक मंत्री वरुण मिश्रा, प्रो शिक्षा संघ संघर्ष समिति ब्लॉक अध्यक्ष देश दीपक पाण्डेय, प्रधान संघ सुमेरपुर के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ऊर्फ प्रिंस्

सिंह, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक वर्मा, एआरपी आशेन्द्र सिंह, रवि शंकर पाण्डेय, आशीष दीक्षित, कृष्ण मुरारी मिश्रा, अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मनीष सिंह, मणि शंकर तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, रामदेव यादव, हरिओम सिंह, रोहित परिहार, राहुल यादव, आमोद गौतम, योगेश यादव, सुशील द्विवेदी, नीरज कुमार, नमो नारायण श्रीवास्तव, रवी शर्मा, वन्दना दीक्षित, सीमा गुप्ता, सुनीता तिवारी, बिनीता देवी, शोला देवी, सारिका शुक्ला, आराधना सहित विकासखंड के समस्त ग्राम प्रधान एएसएमसी अध्यक्ष सचिव उपस्थित रहे।

विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में देखें कि सभी बच्चे यूनीफॉर्म में विद्यालय आ रहे हैं। यदि नहीं तो कारणों पर चर्चा कर सभी को यूनिफॉर्म क्रय करने के लिए प्रेरित करें। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुमेरपुर योगेश बाजपेई ने डीबीटी कार्य की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि सुमेरपुर ब्लॉक को निपुण भारत, कायाकल्प और डीबीटी के माध्यम से जनता को सम्पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

बाइक की टक्कर से साइकिल सवार अर्धेड़ की मौत

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव, पुरवा। सोहरामऊ मार्ग फतेहगंज के पास बाइक की टक्कर से साइकिल सवार अर्धेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के बाद बाइक सवार युवक भाग निकला। अमेठी जिले के थाना फुरसतगंज के अजिता गांव निवासी कुल्लू पासवाना (50) कोतवाली के गांव त्रिलोकपुर निवासी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामकुमार के घर में करीब 14 साल से रह रहा था। उनकी जमीन बटाई पर लेकर खेती करता था। बुधवार रात करीब आठ बजे साइकिल से पुरवा सामान लेने आया था। वापस जाते समय पुरवा-सोहरामऊ मार्ग पर फतेहगंज गांव के पास पीछे से बाइक सवार ने

साइकिल में टक्कर मार दी थी। इससे कुल्लू सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गया था। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था।

डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक के छोटे भाई छोटेलाल ने बताया कि कुल्लू की शादी हुई थी। लेकिन पत्नी कई साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से वह पुरवा में रह रहा था। यहां नहीं आता था। सात भाईयों में बड़ा था। इसमें पांच की अब तक मौत हो चुकी है। दो भाई ही बचे हैं। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि अर्धेड़ सेवानिवृत्त दरोगा के घर पर रुककर उनकी खेतीबाड़ी देखता था। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट रामफल प्रजापति, उप निरीक्षक कृष्णाकांत उप निरीक्षक इंद्रेश वर्मा मय हमराह फोर्स एवं एसओजी प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार मय हमराह टीम एवं सर्विलांस टीम ने मुखबिर् की सूचना पर रेलवे स्टेशन मुख गेट के पास से अभियुक्त शनि उर्फ पटौनी पुत्र महेंद्र निपाद निवासी ग्राम चिन्तामणि कोतवाली नगर जनपद कन्नौज हाल पता लोधुवाखेड़ा रामपुर थाना ग्वालटोली जनपद काठपुर नगर के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर हिरासत में लिया गया तथा अवैध तमंचे के संदर्भ में पृथक्कार करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इन्सान



अली पुत्र स्व0 इशमाइल निवासी राजीव नगर खन्ती थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव ने राजीव नगर खन्ती में अपने मकान में अवैध तमंचा बनाकर बेचता है। सूचना पर पुलिस ने इन्सान अली के मकान में पहुंच कर अभियुक्त इन्सान अली उपरोक्त को हिरासत में लिया गया तथा मकान से दो तमंचा .315 बोर, दो अदद तमंचा 12 बोर, 05 अदद जिंदा कारतूस .12 बोर, एक अर्धेड़ 12 बोर चालू हालत, तीन नाल लोहा 12 बोर,

तीन लोहे की तमंचे की बट बाड़ी अर्ध निर्मित, दो स्प्रिंग लोहे की प्रत्येक की लम्बाई 4 अंगुल, तीन छेनी लोहे की, एक लोहे की पतली राड फायररपिन बनाने की, एक लोहे का कतरन (टुकडा), एक हथौडा लोहे का, एक सडसी लोहे की, एक रेती, एक हिस्सा मय प्लेट रंगमाल, लकड़ी में छेद करने वाली बर्मी बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की गई।

चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण, एसडीएम के फूले हाथ पांव पत्रकारों को बाइट देने से किया मना

अमन लेखनी समाचार/विक्रम मिश्रा

पयागपुर/बहराइच। क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांधभारी में 2009 से प्रचलित चकबंदी प्रक्रिया अब स्थगित होने के कारण पर पहुंच गई है। शुरू से ही ग्रामीण चकबंदी का विरोध करते आ रहे थे। गुरुवार को परिपदीय विद्यालय कांधभारी के कैम्पस में उपजिलाधिकारी पयागपुर दिनेश चंद्र ने चकबंदी एस ओ सी सर्वेन्द्र सिंह, नायब गया प्रसाद व राम कुमार के साथ गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। भौंडू को बेकाबू देखते हुए उपजिलाधिकारी को पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ी।

चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण, एसडीएम के फूले हाथ पांव पत्रकारों को बाइट देने से किया मना

उप जिलाधिकारी के सामने उपस्थित लगभग तीन सौ से अधिक ग्रामीणों में से 225 लोगों ने एक मत होकर चकबंदी प्रक्रिया स्थगित करने के लिए अपने हस्ताक्षर किए। मात्र 105 लोगों ने चकबंदी प्रक्रिया के पक्ष में अपनी इच्छा जाहिर की। उपजिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में अपनी बाइट देने से मना कर दिया। इस मौके पर मुख्य रूप प्रधान पम्पू पाठक, जगदम्बा प्रसाद मिश्रा, राजेश पांडेय, कुंवर बहादुर पाठक, राम बहादुर उर्फ गुड्डू पाठक, सुनील मिश्रा, सहदेव शुक्ला, धनी राम वर्मा, देवी मिश्रा, रूप नारायण, पंकज पाठक, धनलाल पांडेय सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधायक ने छात्रों को वितरण किया स्मार्ट फोन

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर चौरासी, उन्नाव। भाजपा सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है आज केन्द्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चकृत करके बच्चों को सरकारी स्कूलों में एक अच्छा माहौल दिया है। उक्त उदगार विधायक श्रीकान्त कटिहार ने श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय काली मिट्टी में छात्रों में स्मार्टफोन वितरण करते हुए व्यक्त कि उन्होंने कहा कि पीएम श्री लोहे के अंतर्गत स्कूलों को माडल स्कूल बनवाया जा रहा है और उनमें सब सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही जो कान्टेंट और प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी दिव्यांग, असहायोग्य, वृद्ध जनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और उनके कल्याण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है आज सरकार आप लोगों को निशुल्क फोन उपलब्ध करा रही है। इस स्मार्टफोन का उपयोग आप लोग

अपनी पढ़ाई में उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं और गुगल के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र के बारे में तुरन्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार सभी युवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि तकनीक के माध्यम से हम कठिन से कठिन काम आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। आप सभी युवा हैं और एक कहावत है कि जिस और जवानों चलती है उस ओर जानना चलता है कहने का मतलब साफ है कि आप टान लो कि यह लक्ष्य हमको पाना है तो निश्चित ही कठोर परिश्रम और इच्छा शिश्य से आप बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधक डा. विजयेंद्र सिंह ने विधायक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर अजय दुवेदी, अतुल खरे, जीतेन्द्र सिंह, सौरभ सिंह सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। अजय द्विवेदी ने सभी के प्रति आभार जताते हुए बताया कि 121 छात्र में फोनों का वितरण किया गया है।

होली पर्व को देखते हुए ग्राम पंचायत में सतर्क रहें सफाई कर्मचारी: एडीओ पंचायत

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। विकासखंड कैसरगंज मुख्यालय पर तैनात समस्त सफाई कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हुए एडीओ पंचायत नजर इमाम ने कहा कि सफाई कर्मचारी होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर सफाई का कार्य करें और प्रतिदिन जीपीएस फोटो ग्रुप पर शेर्य करें। जिससे प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति तथा कार्य का सत्यापन किया जा सके।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत नजर इमाम ने बताया कि ब्लॉक में फरियादियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया

कि ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि सफाई के प्रति कोई भी कर्मचारी होला हवाली ना करें और होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर होलीदहन, पूज्य स्थल तथा मंदिर और ग्राम पंचायत की नालियों आरसीसी रोड की प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। सफाई कार्य का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम समय में प्रमाणित पैरोल के रूप में लिया जा रहा है। जिस क्रम में उनके वेतन का भुगतान के लिए जिला मुख्यालय पर भेज कर उनका वेतन भुगतान होता है।

एमडीएस विद्यालय में लगा बाल मेला एवं विज्ञान प्रदर्शनी

अमन लेखनी समाचार/उमेश दीक्षित

भरुआ, सुमेरपुर। कस्बे के एमडीएस पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का शुभारंभ सदर विधायक डा. मनोज कुमार प्रजापति ने किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एमडीएस पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का आयोजन कराया गया। सदर विधायक ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा के जिला मंत्री पुष्पराज सोनी एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सदर विधायक ने छात्र छात्राओं के विज्ञान माडलों को खूब सराहा। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने खाने-पीने की सामग्री के तरह-तरह के व्यंजनों के स्टाल लगाए थे। विद्यालय के प्रबंधक नीरज कुमार साहू ने सभी के प्रति आभार जताते हुए छात्र छात्राओं के उज्वल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर धीरज कुमार साहू, शांति हुसैन, गौरव शुक्ला, चिंतांशु खरे सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

विधानसभा पयागपुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन

अमन लेखनी समाचार

पयागपुर, बहराइच। पयागपुर को कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा पयागपुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह सत्या के प्रतिष्ठान पर विधायक सुभाष त्रिपाठी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुभाष त्रिपाठी ने कहा भाजपा संगठन आधारित दल है। कार्यकर्ता ही चुनाव जिताने का कार्य करता है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि संगठन चलाने के लिए कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम एवं कोष की आवश्यकता होती है। भाजपा का संगठन मजबूत है कार्यालय खुल जाने से चुनाव का प्रचार-प्रसार और तीव्र हो जाएगा। इस मौके पर श्री त्रिपाठी ने कहा इस बार भाजपा को पूरे देश में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी भाजपा के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष भाजपा उमाशंकर तिवारी व दीपक सत्या, जिला मंत्री हरेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पाठक, मंडल अध्यक्ष राज कुमार शुक्ला, जिलेकी चौबे, ओम प्रकाश यादव, कमलेश सिंह, अशोक शुक्ला, ग्राम प्रधान गण मनोज सिंह, राहुल सिंह, मनोज मिश्र, पप्पू त्रिपाठी, पप्पू मिश्र, ललित सिंह, अतुल सिंह, अजय तिवारी, सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

इटावा जिला अस्पताल की ओपीडी में सीडीओ डॉक्टर मिले नदरत

मरीज और तीमारदार परेशान दिखे, सीडीओ ने दी कड़ी चेतावनी

अमन लेखनी समाचार

इटावा, इटावा जिला अस्पताल की ओपीडी में सीडीओ ने ओचक निरीक्षण किया। समय से पूर्व ही डॉक्टरों ओपीडी से नदरत मिले। मरीज और तीमारदार इधर उधर घूमते नजर आए। यह स्थिति देख मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। और सीएमएस पुरुष अस्पताल को कड़े निर्देश दिए। दोपहर डॉ भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय में मुख्याधिकार अधिकारी अजय कुमार गौतम ने दोपहर 1:40 बजे डा भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष को आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल का भ्रमण किया गया भ्रमण के समय लगभग पाया गया कि इस अस्पताल की ओपीडी में ही ताला पड़ा हुआ था। इससे



स्पष्ट है कि भ्रमण के समय अस्पताल की ओपीडी में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था। इस प्रकार डॉक्टरों द्वारा निर्धारित समय 2 बजे से पूर्व ही अस्पताल की ओपीडी बन्द कर दी गई थी। जिसके कारण काफी संख्या में मरीज इधर उधर घूम रहे थे। उपस्थित मरीजों एवं उनके तीमारदारों द्वारा अवगत कराया गया कि इस अस्पताल की ओपीडी अक्षर ही

समय से पूर्व बन्द कर दी जाती है तथा यहां तैनात डॉक्टर समय से पूर्व ही चिकित्सालय से चले जाते हैं। सीएमएस पुरुष अस्पताल को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित समय तक चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये, जिससे यहां पर आने वाले मरीजों को इस अस्पताल की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

चिंतन

सीएए लागू करना अच्छा भ्रम का खात्मा भी जरूरी



आंबेडकर विमर्श
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर ही दी। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अवैध प्रवासियों पर लागू होता है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं। इस कानून के तहत उन गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जाएगी, जिन्हें पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गया है। जो प्रताड़ना से तंग आकर भारत आने वाले देश उनका स्वागत करेगा। जब पहली बार देश में सीएए की चर्चा हुई तो हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह गैरकानूनी है और अगर अन्य देशों के लोगों को नागरिकता देने भी है तो इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कौन भूल सकता है कि इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया था। सीएए इन लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनने की योग्यता अवधि को 11 साल से घटाकर पांच साल कर देता है, बशर्ते कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। कोई भी व्यक्ति जो इस आवश्यकता को पूरा करता है, उसे अधिनियम के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सीएए उन अखंड लोगों की मदद करेगा जो पहले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इसमें खास बात यह भी है कि सीएए भारत के बाहरी संबंधों को प्रभावित नहीं करता है और भारत का अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यावर्तन समझौता नहीं है। सीएए केवल मुस्लिम-बहुल देशों के सातह हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार को यह कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा और सरल जवाब यही है कि अगर मुस्लिम देशों में किसी गैर मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहां जाए। हम आए दिन खबरें देखते और सुनते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिन्दुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। हिन्दुओं की नाबालिग बेटियों का अपहरण करके उनके साथ जबरन निकाह किया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में हिन्दुओं का लगातार शोषण हो रहा है। यहां तक कि पड़ोसी देश में संसद या फिर उच्च पद पाने वाले हिन्दू भी सुरक्षित नहीं हैं। कौन भूल सकता है कि पाक में संसद रहे डिवायामा शोषण के चलते ही भागकर हिन्दुस्तान आ गए और अब फतेहाबाद में मूंगफली बेच रहे हैं। ऐसे ही पाक में पुलिस अधिकारी रहे ज़रनल सिंह भारत भाग आए थे। जब वहां इतने बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम हिन्दुओं की हालत को सहज ही समझा जा सकता है। इसी शोषण के चलते पाकिस्तान में हिन्दुओं को तादाद लगातार कम हो रही है। वहां के हिन्दू भागकर भारत आ रहे हैं, लेकिन कानूनी पंचिदलियों के चलते उन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सीएए तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग गुमराह करने से भी बाज नहीं आ रहे। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस बारे में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएं। देश को समझाया जाए कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

परिवर्तन
आर. के. सिन्हा



देखते देखते बदलने लगा कश्मीर

अगर किसी ने फैसला ही कर लिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करना नहीं छोड़ेगा, तो बात अलग है, पर हाल में उनका (मोदी जी) श्रीनगर यात्रा के समय जिस तरह का उमंग और उत्साह के साथ स्वागत हुआ उससे सारा देश आश्चर्यचकित महसूस कर रहा है। एक यकीन होने लगा है कि अब कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब अविश्वसनीय था। सभा स्थल बख्शी स्टेडियम में मोदी का भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों की वक्त से बहुत पहले से ही लाइनें लग गई थीं। इनमें कश्मीरी औरतें भी भारी संख्या में थीं। याद नहीं आता कि जब किसी प्रधानमंत्री का घाटी में इतना गर्मजोशी से स्वागत किया गया हो। इसके पहले लगभग चालीस वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगभग ऐसा ही स्वागत हुआ था श्रीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी की सभा की समाप्ति के बाद लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता और आशा की मिली-जुली रेखाओं को पढ़ा जा सकता था। एक खबरिया टीवी चैनल को स्थानीय निवासी गुलाम भट्ट कह रहे थे, "मुझे यकीन है कि पीएम मोदी हमारी सेवाओं को नियमित कराएंगे। वह अकेले ही इसे पूरा कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अब तक सभी सरकारों ने हमसे केवल खोखले वादे किए हैं।" रैली में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों की सुरक्षा के प्रबंधन में स्थानीय पुलिस सबसे आगे थी। जनता ने पुलिस द्वारा बताए गए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के उप-निरीक्षक सुलेमान खान ने कहा, "यह पीएम मोदी की वजह से हुआ है। अब हमारी वर्दी का सम्मान है। हमने कश्मीर में वह दौर भी देखा है, जब पुलिसकर्मी पत्थरबाजों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के डर से अपना पहचान पत्र नहीं रखते थे। कश्मीर में यह परिवर्तन किसने संभव किया? यह मोदीजी और उनका दृढ़ संकल्प है कि कश्मीर में कानून का शासन वापस आया।"

मुझे मेरे कश्मीर में रहने वाले कई मित्रों ने बताया कि रैली के बाद लोग कश्मीर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ रैली के बारे में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि लोग खुद स्वेच्छा से वहां पहुंचे थे। हजारों लोग गर्व से बता रहे हैं कि उन्होंने बख्शी स्टेडियम में मोदी जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अनुभव अवसर का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू-कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वह खुलकर सांस ले रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है, जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है, इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है।

अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की रैली से हटकर करें तो कश्मीर की जनता देख रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कितने बदतर हालात हैं। वहां पर दिन में कम से कम दसके घंटे तक बिजली नहीं आती। वहां रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अब कुछ भी छिपा नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता यह भी देख रही है कि पीओके में पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले छह महीनों से महंगाई, अप्रत्याशित बिजली बिल और अन्य करों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, वहां पर प्रशासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। बिजली के भारी बिलों और करों को लेकर लोगों का आंदोलन शुरू किया था। इस बीच, अब बहुत साफ है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का कोई मसला ही नहीं रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य का अचाम अब धारा 370 से आगे निकल चुका है। जैसी कि उम्मीद थी कि इस धारा को हटाए जाने के बाद राज्य का सर्वांगीण विकास और रफ्तार पकड़ लेगा, अब वही हो रहा है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक शिवासे में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 14 शिक्षण नेताओं से मिल ही चुके हैं। अफसोस होता है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के सवाल पर कांग्रेस का रवैया बेहद खराब रहा है।

बाबासाहेब का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं एवं उन्हें उनकी गरिमा के साथ जीने का सुअवसर उपलब्ध है कि नहीं? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता किसी भी का देश विकास संभव नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सरकार बाबासाहेब के विचारों को लेकर काफी काम कर रही है और आधी आबादी के विकास में यदि डॉ. आंबेडकर की मंशा को मूर्त रूप दिया जाएगा तो इससे भारत की स्त्रियाँ, हाशिये के समाज और अपने हक से वंचित लोगों की गरिमा सुरक्षित व संरक्षित होगी।

महिला सशक्तिकरण का हो प्रयास

विश्व में महिला सशक्तिकरण के लिए खूब बातें हो रही हैं, लेकिन स्त्रियों के बीच से उनके अधिकारों के हनन का शोर भी है। भारत में स्त्री-प्रश्न पर दुनिया की अपेक्षा न तो आन्दोलन है, और न ही असंतोष, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के सशक्तिकरण पर कई स्तर पर ध्यान दिया गया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की चिंता केवल आधी आबादी को लेकर नहीं थी, अपितु उनका तो सम्पूर्ण चिंतन उस विरासत से मुक्ति का था, जो व्यक्ति को असमानता में धकेलते हैं। श्रम के बराबर हक जहाँ न मिलता हो और घृणा और अस्पृश्यभाव से जिन्हें देखा जाता हो। हमारे देश में डॉ. आंबेडकर ने स्त्रियों के लिए संघर्ष किया। उन्हें सम्मान के लिए हकदार बताया और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए आवाज उठाई और निःसंदेह संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार की बात बाबासाहेब ने ही उठाई। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 3 अक्टूबर, 1954 को आकाशवाणी को एक साक्षात्कार दिया था, उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं, एक, मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आजादी का विशेष स्थान है। दूसरा, मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इस 'आजादी' और 'समता' के सन्देश को यदि भारतीय मानस या दुनिया की आबादी समझ ले तो इसमें समस्त नारीवादी आन्दोलन और उनकी मांगों का हल है। स्त्रियाँ आजादी चाहती हैं, स्त्रियाँ समानता चाहती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी मांग है ही नहीं। यदि डॉ. आंबेडकर इन दोनों मांगों के लिए भारतीय मानस तैयार करने के हिमायती थे तो यह बात समझने की है कि उनकी स्त्रियों के प्रति क्या इच्छाएं थीं। यद्यपि इसे कहा जाएगा कि यह तो सबके लिए उनकी बात थी, लेकिन सबमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, इसे भी कोई नकार नहीं सकता।

बाबासाहेब का मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं एवं उन्हें उनकी गरिमा के साथ जीने का सुअवसर उपलब्ध है कि नहीं? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता तो किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं। इसीलिए भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं के विकास, उन्नति एवं उनके पूरे अधिकारों व गरिमा को दिलाने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए 1951 में 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। इस कोड बिल में स्त्रियों के लिए विशिष्ट अधिकार, हिंदू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए एकाधिक पत्नी अर्थात् बहुविवाह प्रतिबंध, अविवाहित कन्याओं

और विधवाओं को बिना कोई शर्त के पिता या पति के सम्पत्ति पर उत्तराधिकार और अंतरजातीय विवाह को मान्यता का प्रावधान था। इसमें अंतर्निहित बाबासाहेब के केवल विचार नहीं थे अपितु उनकी वे संवेदनाएं थीं, जिनसे स्त्रियाँ सुरक्षित रहकर अपने जीवन में अवसाद में न जाएं। उन्हें पूर्णतया आत्मबोध और सुरक्षाबोध भी हो। इस बिल को 1951 में अंबेडकर ने संसद में पेश किया था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य था कि संसद के अंदर और बाहर इसका जमकर विरोध हुआ। बाबासाहेब ने धुब्धु



होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जो इच्छा थी उसे हतोत्साहित कर दिया गया। यद्यपि बाद में कुछ संशोधनों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित कर दिया गया जिसके तहत तीन कानून बने- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1955), हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम (1956) और हिंदू एडोपशन और भरणपोषण अधिनियम (1956)। ये अधिकार भारत के शोषित तबके को सशक्त करते हैं। आज युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों को वस्तु के रूप में देखा जा रहा है या अफगान स्त्रियों के भीतर व्यापक रोष है। उनका अपने स्थानीय प्रशासन से, तो कहीं न कहीं उनकी आजादी छिन गई है। उन्हें समान दर्जा पुरुष प्रधान-समाज द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब यदि पूरी दुनिया का विश्लेषण करें तो स्टेट्स के बारे में ही एक राय यह बन रही है कि स्टेट्स खुद पितृसत्ता के ही बन्धन हैं। वे पितृसत्ता सा व्यवहार करते हैं और स्त्रियाँ उनके द्वारा अतिक्रमण का शिकार बनती हैं। पहले समाज में पितृसत्ता व्यवस्था थी जहां स्त्रियाँ लड़ने हेतु मजबूर होती थीं, यदि स्टेट्स के ही चरित्र पितृसत्तात्मक हो जाएंगे तो फिर आधी आबादी की लड़ाई निश्चित रूप से दुरूह हो जाएगी। अफगान, ईरान और विकसित देशों में भी स्त्रियों के जो हालात हैं, वे ठीक नहीं हैं। कठिनाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। भारत में डॉ.

आंबेडकर का कहना था कि सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिन्दू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूँ तो मेरे दर्शन का खास उद्देश्य है। आंबेडकर के दर्शन में उनके जीवन का सार है। आज डॉ. भीमराव आंबेडकर केवल भारत में नहीं अपितु दुनिया में भी गैर-बराबरी को खत्म करने के लिए मुखर रूप से अपनी अनुपस्थिति में भी उपस्थित हैं। उनकी सोच जिंदा है। वे अपने विचारों से अभी भी बराबरी के लिए भरपूर वकालत कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों के लिए एक आवाज है। उसमें एक व्यापक बदलाव भी है। यह बदलाव विश्व की तस्वीर चेंज करने में सक्षम है। यह संयुक्त राष्ट्र ने भी समझ लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी के आहिसा सन्देश को जिस प्रकार फैलाया है। डॉ. आंबेडकर के विचारों को भी अब उसने पकड़ लिया है और इक्वैलिटी की जितनी पुरजोर कोशिश हो सकती है, वह फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसने यह साफ-साफ कह दिया है कि सामाजिक न्याय के लिए इक्वैलिटी जरूरी है और इसके प्रेरणा स्रोत आंबेडकर हैं। दुनिया में देखा जाए तो स्त्रियाँ भी इक्वैलिटी को लड़ाई लड़ रही हैं। स्त्रियों के साथ दुनिया को सामाजिक न्याय इसी इक्वैलिटी के माध्यम से मिलने वाली है। संयुक्त राष्ट्र यह चाहता है कि डॉ. आंबेडकर के विचारों को फैलाया जाए। इनके विचारों में दम है। इनसे विश्व में सामाजिक न्याय की मुहिम तेज की जा सकती है। आधी आबादी का संकट बाबासाहेब के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर के जो विचार हैं उसे आमजन तक ले जाना है। यह विचार स्त्रियों को सशक्त बनावेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बाबासाहेब के विचारों को लेकर काफी काम कर रही है और आधी आबादी के विकास में यदि डॉ. आंबेडकर की मंशा को मूर्त रूप दिया जाएगा तो इससे भारत की स्त्रियाँ, हाशिये के समाज और अपने हक से वंचित लोगों की गरिमा सुरक्षित व संरक्षित होगी। इस दिशा में मोदी सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं जिससे आधी आबादी को सुरक्षा का अहसास हुआ है। यदि देश में डॉ. आंबेडकर के विचारों को लागू कर दिया जाएगा तो हमारी निष्ठा उन लोगों के प्रति दिखेगी भी और फलीभूत भी होगी।

राम सब घट मेरा साइयां



संकलित
दर्शन

पूरे संसार में राम का निवास है, सबमें भगवान हैं और हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। कबीर ने कहा है- 'राम सब घट मेरा साइयां'... राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। सदा सर्वदा सबके हृदय में रहेंगे, लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताओं के कारण कभी-कभी हम राम को साधन बना बैठते हैं। इसलिए हम राम को सही रूप में नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमें सिया राम के दर्शन होने लगें तो तमाम भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जातीय आधार पर भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए धर्माचार्यों को आगे आना होगा। धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र, अंतिम व्यक्ति पूज्य होना चाहिए। अगर अंतिम व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक पहुंचें। भारतीय दर्शन में इहलोक और परलोक की बात आती है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। दूसरों के कल्याण की भावना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम व्यापक व विराट की संतान हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण का भारतीय सोच पूरे विश्व के कल्याण का सोच है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो दुनिया के सभी देशों के कल्याण की बात करते हैं।



संकलित
प्रेरणा

जीवन में, सब ईश्वर की दया ही है

एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कट्टू अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था, संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े जवाब से खाया जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछा- ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गये? नौकर बोला- आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया, अगर ईश्वर ने इतनी सुख-सम्पदाएँ दी है, और कभी कोई कट्टू अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है, सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम केवल जीवन में अच्छे व उजले पक्ष को ही देखते हैं। हमें सुख, आराम पसंद है, पर दुःख व कष्ट के क्षण आते ही हमारा मन विचलित होने लगता है। जीवन में सुख और दुःख दोनों ही पल होते हैं।

अंतर्मन



आज की पाटी

रसोई गैस की कीमतों में थोड़ी राहत
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में 100 रुपए कमी कर महंगाई से कुछ राहत दी है। रसोई गैस सिलिंडर की कीमत पिछले कुछ समय से बढ़ती ही जा रही थी। विपक्ष बेशक इसे राजनीति के चश्मे से देखेगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, लेकिन आमजन को इससे कुछ राहत मिलेगी। अगर रसोई गैस की कीमतें बढ़ती जाएं तो ये मह्यम वर्गीय लोगों के लिए भारी मुश्किलें पैदा कर देंगी। हमारे देश के गांवों में आज 21वीं सदी में भी कुछ लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी और गोबर के उपले जलाने की विधि अपनाने हैं। - वैभव देशपांडे, खिलासपुर

करंट अफेयर

चार भारतीय-अमेरिकी महिलाएं सम्मानित


न्यूयॉर्क की चार प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को समाज में उनकी उपलब्धियों तथा योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। महारानी राधिका राजे गायकवाड़, नीना सिंह, डॉ. इंदु लियु और मेघा देसाई को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस (एफआईए) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के छठे संस्करण में सम्मानित किया गया। एफआईए ने एक बयान में कहा कि गायकवाड़ अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से शिक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी महिला हैं।



ऑफ बीट

जीवविज्ञानियों की हैमरहेड शार्क के भ्रूण तक पहुंच

ऐसा कम ही हो पाता है कि वैज्ञानिकों को नवजात शार्क या नर्सरी में उनके विकास के रहस्यों तक पहुंच मिल पाए। इसलिए हैमरहेड शार्क (रिफिन टिबुरो) के भ्रूण को उसके पांच महीने के विकास के बीच में देखना बहुत ही असामान्य है। बढ़ते भ्रूण तक पहुंच मेरे जैसे विकासवादी जीवविज्ञानियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पृथ्वी पर जानवरों की विविधता को समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जिन मछलियों का मैं अध्ययन करता हूँ, जिनमें अन्य शार्क प्रजातियाँ भी शामिल हैं, जो अंडे देती हैं, जिससे हम वास्तविक समय में विकास को आसानी से देख सकते हैं। हालाँकि, हैमरहेड शार्क अंडे नहीं देती हैं। वे अपने शिशुओं को गर्भाशय में गर्भाधान कराते हैं।



ट्रेंड

रुपये में बढ़ रहे वैश्विक ट्रेड

बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी क्षेत्र के देशों सहित कई विकसित और विकासशील देशों ने रुपये में व्यापार करने की इच्छा जताई है। भारत के साथ साझेदारी से इच्छा के लिए लेनदेन की लागत घटेगी। सिंगापुर पहले ही कुछ हद तक इसमें शामिल है। -पीतूष गोयल, केंद्रीय मंत्री



युद्धविराम की कोशिश

रमजान के पाक महीने को देखते हुए अमेरिका इजराइल व हमास के बीच जारी जंग में बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते के तहत कम से कम छह सप्ताह के तत्काल युद्धविराम के लिए कोशिश करेगा। -जो बाइडन, यूएस राष्ट्रपति



संविधान में बदलाव खतरनाक

यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के एजेंडे के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है तो "यह संसदीय लोकतंत्र, संसदात्मक, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अज्ञेयी भाषा का अंत होगा"। -पी टिट्टरबन, पूर्व केंद्रीय मंत्री



सूची सामने आ जाएगी

पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से वह सूची (जुनाबी बॉण्ड से जुड़े लोगों की सूची) सामने आ जाएगी। इससे यह पता लग जाएगा कि जुनाबी बॉण्ड किन-किन लोगों से सम्बंधित है। -अखिलेश यादव, पूर्व सीएम



संक्षेप

अमरोहा में 2 साल के बच्चे पर पिटबुल का हमला

घर के बाहर खेलते समय काटा, मालिक ने छुड़ाया, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती

अमरोहा, अमरोहा में अब एक पिटबुल ने मासूम पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जब पिटबुल कुत्ते ने मासूम पर अटैक किया, तब कुत्ते का मालिक कुत्ते को घुमा रहा था। जिससे मासूम को जान बच गई। हालांकि मासूम के सिर पर जख्म हुए हैं। जिसके चलते मासूम को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, यह घटना मंडी धनौरा इलाके के गांव ततारपुर की है। गांव निवासी ऋषभ ने बताया कि शाम को उनका दो साल का बेटा प्राकृत घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान गांव निवासी सतीश अपने पिटबुल कुत्ते को सड़क पर घुमा रहा था। तभी उसके पिटबुल कुत्ते ने उनके बेटे पर हमला कर दिया। हमले में उनके बेटे के सिर पर पिटबुल ने गहरे जख्म कर दिए। जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। जहां मासूम का उपचार चल रहा है। उधर जिले में लगातार बढ़ रहे कुत्ते के हमले जैसे मामलों को देखकर लोगों में दहशत है। उधर इस मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि जनपद भर में हिंसक कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी नगर पालिका, पंचायत प्रशासन को हिंसक कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

सीए को लेकर हापुड़ में हाई अलर्ट

डीएम-एसपी सुरक्षा व्यवस्था जांचने सड़क पर निकले, जिले को 4 जेन, 10 सेक्टर में बांटा

हापुड़, हापुड़ में शाम को देश में सीए का नोटिफिकेशन होते ही देर रात अलर्ट घोषित कर दिया गया। डीएम प्रेरणा शर्मा-एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस बल और अर्द्ध सैनिक बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। जिले में जोनल स्कीम लागू करते हुए पुलिस ने एक सुपर जोन समेत 4 जेन, 10 सेक्टर में जिले को बांट दिया। देर रात जेन से निगरानी की जा रही थी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सीमाओं को सील कर वाहन चेकिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध कड़े किए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों के अलावा होटल, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी जांच की गई। इसके अलावा तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिस ने आरपीएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। जिले को 10 सेक्टर में बांटा गया है। जबकि एक सुपर जोन समेत 4 जेन बनाए गए हैं। जिले में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने पर किसी प्रकार को अभियंत्रण घटना न हो और इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस सतर्क है।

विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुआ विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम

मुख्य अतिथि रहे अपर जिला जज एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विराट शिरोमणि अमन लेखनी समाचार/मिथिलेश जायसवाल

मोतीपुर, बहराइच। महिलाओं को उनके अधिकार बताने तथा कानून संबंधी सरकार द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कार्यक्रम में अपर जिला जज सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिहिरीपुरवा तहसील परिसर तहसीलदार कक्ष में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा जागरूकता शिबिर में में महिलाओं को महिला ईसान रोकने तथा महिलाओं की भागीदारी दरी के साथ ही महिला सुरक्षा के संबंध में कानून संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार मिहिरीपुरवा व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिका चौधरी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराट



शिरोमणि, अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को कानून का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक प्राधिकरण से ही महिला का सशक्तिकरण संभव है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव से आवाज नहीं उठा पाती है। इससे वह कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करती है। अम्बिका चौधरी तहसीलदार / सचिव तहसील विधिक सेवा

कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सहयोग के लिए पुलिस सदैव तैयार है। एडवोकेट कनक लता मिश्रा (माधुरी लता मिश्रा) ने महिलाओं को उनके अपने विधिक अधिकार एवं दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता रमावती के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपने-अपने मन की बात कही साथ ही विधिक के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विधिक महिला जागरूकता कार्यक्रम में रामवती, नीतू, सोनु, कुमारी, पुष्पा देवी, अनीता देवी, रामच्यारी सहित काफी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभा किया। कार्यक्रम के समापन पर तहसीलदार अंबिका चौधरी ने अपर जिला जज सहित आए हुए सभी अतिथियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील मिहिरीपुरवा की टीम से हसराम लोधी, अमित वर्मा, मिथिलेश जायसवाल सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रही।

कृषि विभाग द्वारा किसान मेला आयोजित

मोटे अनाज के साथ ही प्रकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे वैज्ञानिक अमन लेखनी समाचार

बहराइच। कृषि विभाग द्वारा विशाल किसान मेले का आयोजन ग्राम रखौना विकास खंड शिवपुर नानपारा बहराइच एवं ग्राम मिजापुर चहलवां विकास खंड नबाबगंज जनपद पर आयोजित किया गया जन्हा ग्राम रखौना विकास खंड शिवपुर में आयोजित कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख सुधीर आज सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिनके द्वारा भारत सरकार के कृषि में योगदान को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में नानपारा व कैसरगंज के उप मंडल अधिकारियों ने सरकार विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया। कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ पीके सिंह ने बताया कि जायद में ककुराबिटस फसलों को लेने से तुरंत नगदी प्राप्त की जा सकती है उन्होंने बताया कि सरकार कई योजनाएं चलाती है। इसके अलावा किसानों को मेले के माध्यम से भी जागरूक करने का काम किया जाता है



इसमें किसानों को कृषि नवाचार से संबंधित चीजों को जानकारी दी जाती है साथ ही किसानों को उन्नत कृषि प्रविधियों से मुखातिब कराना और उन्हें बदलते दौर के प्रति जागरूक करना भी आज की जरूरत है। डॉक्टर पीके सिंह ने यह भी साफ बताया कि जायद कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं सामयिक उपयोग परम आवश्यक है। आश्वस्त सिंचन सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों में जायद में खेत की उपयुक्त नुसार मृग, उर्द, चना, सूरजमुखी, मक्का धान, हरा चारा, साग-सब्जी तथा हरी खाद को फसले ली जाती है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में

उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई साधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही किसान मेला ग्राम मिजापुर चहलवां विकास खंड नबाबगंज जनपद में स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा के वैज्ञानिक सुनील कुमार ने बताया कि सहकारिता विभाग की योजनाएं और खेती किसानों में प्रयोग होने वाले आधुनिक मशीनों के प्रयोग से लागत में सिमितता प्रभावी होगी जो किसानों की लागत को स्थिर कर आय में बढ़ोतरी करेगी। इस मौके पर काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

अमेठी में युवक ने खाया जहर

○ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में हुई मौत, बिना पुलिस को बताए किया अंतिम संस्कार

अमेठी जिला, अमेठी में आज सुबह एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन-फानन में परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के अमिया गांव का है, जहां आज सुबह एक युवक की सदिग्ध पदार्थ खाने से हालत खराब हो गई। आनन-फानन में परिजन 18 वर्षीय सत्यम सिंह पुत्र अवधेश सिंह को लेकर मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर

डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख सत्यम सिंह को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिजन युवक को ट्रामा सेंटर लखनऊ ले जा रहे थे जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक के मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंचे। परिजन शव को लेकर घर पहुंचे और



बिना पुलिस को बताए शव का अंतिम संस्कार दिया। गौरीगंज एसएफओ शिवाकांत त्रिपाठी ने कहा कि परिजनों की तरफ से कोई शिकायत पत्र नहीं दिया गया है। तहरीर मिली तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

844 छात्र-छात्राओं को विधायक ने किया स्मार्टफोन का वितरण

○हसनपुर के झम्मनलाल डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन पाकर छात्र-छात्राओं के खिलें चेहरे

अमन लेखनी समाचार

हसनपुर, अमरोहा के हसनपुर में स्थित झम्मनलाल डिग्री कॉलेज में विधायक ने छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया। स्मार्टफोन पाकर छात्र-छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान महरेंद्र सिंह खडगवंशी के द्वारा छात्र-छात्राओं को 844 स्मार्टफोन का वितरण किया गया। जहां शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अनुसार



छात्र-छात्राओं के भविष्य कल्याण एवं शिक्षा समृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश भर में शासन द्वारा स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर के झम्मन लाल पीजी कॉलेज में भी स्मार्टफोन प्रकार छात्र-छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर विधायक महरेंद्र सिंह खडगवंशी ने बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में गरीब का बच्चा अमीर बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता था

तो सोचता था मुझे कब स्मार्टफोन मिलेगा। परंतु बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अब हर बच्चे को स्मार्टफोन देने का काम किया है। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. शमा परवीन, नेहा स्कंसेना, डा. हिरदेश कुमार, निरंजन सिंह, रेनु चौधरी, कु. शिवानी, डा. नीति शर्मा, संजय सिंह समेत कालेज के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

रोहतक में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

○रोड क्रॉस कर रहा था; 3 साल पहले हुई शादी, 4 माह का बेटा

रोहतक, रोहतक के गांव खरावड़ बाइपास के समीप रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत पर ही मौत हो गई। वहीं, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मृतक की पत्नी को शिकायत पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के हकीमपुर कला निवासी करीब 22 वर्षीय राज के रूप में हुई है। जो यहां रोहतक में मेहनत मजदूरी करता था और यहां पर ही रहता था। पुलिस जांच के अनुसार, राज अपनी बाइक पर गांव खरावड़ बाइपास का साया उठ गया। आईएमटी पुलिस थाना के जांच



साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहगीर एक्जिट हो गए। वहीं, सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक राज की शादी करीब 3 साल पहले चांदनी के साथ हुई थी। वहीं, करीब 4 माह पहले उनके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। इस हादसे के बाद बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। आईएमटी पुलिस थाना के जांच

मिल्कीपुर में गोदाम में लटकता मिला व्यापारी का शव

मॉर्निंग वॉक पर गई थीं पत्नी, लौटी तो पति की बाँड़ी देख चीख पड़ीं

अमन लेखनी समाचार

मिल्कीपुर, मिल्कीपुर में सदिग्ध परिस्थिति में 60 साल के व्यापारी का शव दुकान के अंदर फंदे से लटकता परिजनों को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली इनायत नगर अन्तर्गत मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर निवासी तेज प्रताप (60) अपने घर पर ही सीमेंट, खाद व सरिया का कारोबार करते थे। आज सुबह तेज प्रताप का शव खाद गोदाम में लगे लोहे की पाइप से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिला। शव लटकता देखा परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से शव को उतराकर पंचायत नामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया



है। मृतक तेज प्रताप की पत्नी मैनावती को माने तो घटना उस वक्त हुई जब मॉर्निंग वॉक पर गई हुई थी। तेज प्रताप दरवाजे पर साफ सफाई कर रहे थे। घर

की पाइप से रस्सी के सहारे वह लटके हुए थे। उनके चीखने चिल्लाने पर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी शाहगंज संजय यादव मौके पर पहुंचकर मामलों की जानकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली इनायत नगर को दी। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि घटना के संबंध में जानकारी परिजनों से ली जा रही है। फिलहाल घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है, क्योंकि जिस स्थान पर तेज प्रताप ने फांसी लगाई थी, उसी के पास एक सीढ़ी भी खड़ी थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकेगा।

अयोध्या में भीषण हादसा... एक की मौत, 5 घायल

○श्रद्धालुओं से भरे ई-रिक्शों में ट्रक ने मारी टक्कर; हाईवे पर लगा एक किमी तक जाम

अयोध्या, अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ-गोरखपुर नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरे ई-रिक्शा को ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई, पांच श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक व्यक्ति का घुटने से पैर अलग हो गया। रिक्शा चालक समेत चार का इलाज दर्शन नगर ट्रक सेंटर में चल रहा है। जबकि एक का इलाज अयोध्या जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी लोग अयोध्या दर्शन के लिए आए थे। कोतवाली क्षेत्र के रघुकुल रेस्टोरेंट के पास राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर



ई-रिक्शा को ट्रक ने टक्कर मार दिया। ट्रकवर इतना जबरदस्त था कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ई-रिक्शा में बैठे सभी छह लोगों को गंभीर चोट आयी। सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ से राम मंदिर के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भीष्म साहू निवासी छत्तीसगढ़ की मौत हो गई है। जबकि तोरण लाल का एक पैर कट गया, वह भी छत्तीसगढ़

का रहने वाला है। उद्ध अयोध्या आशुतोष मिश्रा ने तोरण को अपने वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। इसके अलावा ई-रिक्शा चालक महेश कुमार कौशल निवासी दर्शन नगर, सोनी (35) नजीबाबाद बिजनौर, मनोज सिंह मझगंवा मध्य प्रदेश गंभीर रूप से घायल हैं।

रामोत्सव में भजन संध्या पर चढ़ रहा होली का खुमार

दिवाकर चतुर्वेदी व शशांक शुक्ला के युगल गायन में फगुवा गीतों की धूम

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, रामोत्सव के भजन संध्या पर होली का खुमार गहराने लगा है। गोरखपुर से पधारे दिवाकर चतुर्वेदी व शशांक शुक्ला ने अपने भजनों की शानदार जुगलबंदी में मेरे तो राजा राम-आते जाते हुए राम बोला करो... राम कहने से तर जाएगा को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी क्रम में डमरू के डिम डिम से निकला सीताराम सीताराम-चंद्रियरी झीनीरे झीनी व होली खेलें रघुवीरा अवध में जैसे भजनों से खूब रिझाया, नचाया और सुरीले स्वरो से भक्तों को आनंदित किया। भजन रत्न सम्मान से विख्यात वाराणसी से पहुंचे सनी मिश्रा के भजनों पर भक्तों में खूब उत्साह दिखा। उन्होंने नगरी हो अयोध्या सी... डिमिक डिमिक कर डमरू बाजे... आदि भजन सुनाए। दिवाकर चतुर्वेदी शशांक शुक्ला, सनी मिश्रा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। राम लाला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां रामोत्सव में प्रस्तुति देने कलाकार पहुंच रहे हैं।



अयोध्या में किसान मेला प्रदर्शन का आयोजन

○कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी बोलने के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार कटिबद्ध

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या में किसान मेला का आयोजन किया गया। चार दिवसीय मेला का उद्घाटन जीआईसी ग्राउंड में किया गया। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और जिले के प्रभारी मंत्री सुर्व प्रताप शाही ने किसान मेले का उद्घाटन किया। कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। भाजपा सरकार में योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जिसका सीधा लाभ किसानों



को मिल रहा है। सरकार किसान हित में कई योजनाएं संचालित कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा उप कृषि निदेशक डॉ. संजय त्रिपाठी ने बताया कि चार दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी में प्रगतिशील किसान लोगों उत्पादों के स्टॉल लगाकर अपने-अपने की किसानों से जुड़ी जरूरी जानकारी दे रहे हैं। मेले में आए किसानों को मोटे अनाज के साथ जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि

सूचना तंत्र के सुधार एवं कृषक जागरूकता के तहत जीआईसी में आयोजित किसान मेला प्रदर्शनी को संबोधित कर रहे थे। प्रदर्शनी में मोटे अनाज एवं जैविक खेती पर जोर दिया गया। इससे पूर्व कृषि विभाग की से आयोजित चार दिवसीय मेला का उद्घाटन प्रदेश की कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सुर्व प्रताप शाही के उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम कुसुम योजना के तहत एक लाभार्थी महिला को सोलर चयन पत्र सौंपा गया।

संक्षेप

सीतापुर में 6 महिलाओं सहित 8 लोग गिरफ्तार

बनाती थी पुरुषों को मदहोश कर देने वाली "जड़ी बूटी", अलग-अलग गांवों में लिया गया एक्शन

सीतापुर, सीतापुर में 6 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यह सभी पुरुषों को मदहोश कर देने वाली "जड़ी बूटी" बनाते थे। पुलिस ने यह कार्रवाई शेखापुर, हथुथी, टिकरा, बीबीपुर सहित अन्य गांवों में छापेमारी करते हुए की है। पुलिस ने एक गांव में मिली बूटी को भी ध्वस्त कर दिया है। मामला जिले के इफ्तिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। यहां से पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से भंडियां धकेल रही हैं। यहां हर रोज बड़े पैमाने पर लहन की खपत हो रही है। इसके बदले में लोगों को जड़ी बूटी सप्लाई की जा रही है। यह जड़ी बूटी कुछ और नहीं, देसी शराब ही है। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए इलाके के कई गांवों में छापेमारी अभियान चलाया। इसी क्रम में कथित जड़ी बूटी बनाने वाली 6 महिलाओं समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम के साथ आबकारी विभाग की टीम भी मौजूद रही। सीओ महोली अरुण कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 325 लीटर अवैध शराब को जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने 1 शराब बूट्टी को भी ध्वस्त किया है।

मेरठ में महिला ने खुद पर थिनर छिड़ककर लगाई आग

गंभीर हालत में परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया बयान

मेरठ, मेरठ के मवाना में गृह क्लेश के चलते महिला ने खुद पर थिनर डालकर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के परिवार वालों ने उसे मवाना स्थित सीएससी में भर्ती कर दिया। जहां से डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मवाना स्थित मोहल्ला काबली गेट की रहने वाली पिंकी का सोमवार रात को पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान पिंकी ने अपने ऊपर थिनर डालकर आग लगा ली। महिला पिंकी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंच गए और गंभीर रूप से झुलसी पिंकी को मवाना स्थित सीएससी में भर्ती करा दिया। जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ स्थित जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि आग से झुलसी महिला ने बयान में खुद ही आग लगाने की बात कही है। अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है।

भौतिक जानकारी के लिए बच्चों को कराया गया भ्रमण



शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान विज्ञान की ओर बच्चे हुए आकर्षित

अमन लेखनी समाचार

बकेवर, फतेहपुर। जनपद के देवमई विकासखंड शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार शुक्ला के नेतृत्व में बच्चों को एक्सपोजर विजिट के तहत नजदीकी जनपद कानपुर नगर के ऐतिहासिक

श्रीमद्भागवत कथा की गाजेबाजे के साथ निकली कलश यात्रा

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा तहसील अंतर्गत विकासखंड पिपरीली क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना को लेकर ग्राम पंचायत बड़गहन में श्रीमद्भागवत कथा की शुरूआत कलशयात्रा से की गई। यह कलशयात्रा काली माता के स्थान से शुरू होकर कालेसर बगहा बाबा मंदिर के पास पहुंचा और वहां कलश में जल भरा गया तथा कथा स्थल पर समाप्त हो गई। इस दौरान गांव की सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ के बाद मुख्य कथा वाचक श्री शुभम शास्त्री जी महाराज ने कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद्भागवत कथा आज से 22 मार्च तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए कथा होगी।



वहीं कार्यक्रम आयोजक अंकुर पाण्डेय एवं डॉ शिवशंकर पाण्डेय ने कहा कि यह आयोजन गांव की सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए आयोजित की जा रही है। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल पुरुष, महिलाएं और बच्चे धार्मिक गीतों की धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। सैकड़ों

अंकुर पाण्डेय, अशोक पाण्डेय, डॉ शिवशंकर पाण्डेय सिर पर श्रीमद्भागवत पुराण रखकर चले उनके पीछे डीजे और बैंड बाजों की धुन पर भक्त थिरकते रहे। इस दौरान कलश यात्रा का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ यादव, पूर्व प्रधान बड़गहन सहित अन्य लोगों ने विभिन्न स्थानों

पर स्वागत किया। इस अवसर पर शिवदास पाण्डेय, मनीष पाण्डेय, बिक्रम विश्वकर्मा, अशोक पाण्डेय रविकान्त उर्फ लातू, ओमकार यादव, शिवदास पाण्डेय, पप्पू यादव, धनुषधारी पाण्डेय, राजू चतुर्वेदी, राजकुमार यादव सहित सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।

आईपीएम के 28 छात्रों का हुआ कैम्पस सेलेक्शन



अमन लेखनी समाचार

सहजनवा, गोरखपुर। केआईपीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा, गोरखपुर के प्रांगण में सुबरोज लिमिटेड, नोएडा कम्पनी के ओर से कैम्पस सेलेक्शन का आयोजन किया गया जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के 50 छात्रों ने प्रतिभाग किया जिसमें अंतिम रूप से 28 छात्रों का चयन किया गया संस्था के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी नीतेश जायसवाल ने बताया कि कम्पनी ऑटोमोबाइल की एसी बनाती है छात्रों के चयन पर संस्था के चेयरमैन आरओ डी0 सिंह, सचिव विनोद सिंह, निदेशक डॉ0जाहद खान, निदेशक मानव संसाधन एस0पी0 सिंह, डीन डॉ0 पुनीत श्रीवास्तव, डॉ0राकेश पांडेय, तथा डॉ0 आजम खान, विवेक सिंह, प्रतीक शाही, मनीष दुबे, भास्कर पांडेय, रंजीत राय, डॉ0 हरेंद्र चौहान एवं डॉ0 अजय मोर्य आदि शिक्षकों ने प्रसन्नता जताया तथा चयनित छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया

स्मार्टफोन प्राप्त कर छात्र-छात्राओं के चेहरे खिले

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा तहसील अंतर्गत क्षेत्र के बाबूलाल सिंह पीजी कॉलेज भगौरा में आज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बी ए और बीकॉम तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) के छात्र-छात्राओं को भाजपा विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक युवा देश का भविष्य होता है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति युवाओं पर ही निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार द्वारा युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत स्नातक के छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। जिसका लाभ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सतत रूप से मिलता रहेगा। इस अवसर



पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य संजय शुक्ला, भजयुगो के रवि सिंह सोलंकी, पिपरीली ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार यादव ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक मानस सिंह द्वारा किया गया तथा संचालन डॉ राजकमल सिंह ने किया। आज महाविद्यालय के बी ए और बीकॉम तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) के कुल 178 छात्र-छात्राओं के बीच

विधायक ने 25.46 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पानी टंकी का किया भूमि पूजन



विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक देवनारायण उर्फ जीएम सिंह ने कहा की नगर के हर घर को शुद्धपेय जल पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर की है। शुद्धपेय जल पहुंचाना प्राथमिकता में शामिल होगा। जल्द ही करीब 5 हजार घरों को जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर

अध्यक्ष संजू सिंह, संचालन मनोज सिंह ने किया। इस दौरान, अधिशासी अधिव्यता सुरेश कुमार, अवर अधिव्यता पंकज यादव, मनोज गुप्ता, संजय शुक्ल, प्रकाश शुक्ल, अभिमन्यु मोर्य, नरेंद्र शुक्ल, विनोद सिंह, मनोज जायसवाल, वीरेंद्र कुमार, सहित अनेक लोग मौजूद थे।

करीब 5 हजार घरों में आपूर्ति होगा पानी

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा नगर पंचायत के 11 वार्डों में पानी की टंकी के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को गया हुआ था। 6 वार्डों में करीब 25.46 करोड़ लागत से पानी की टंकी का निर्माण होना है। जिसके लिए वृहत्संविचार को नगर पंचायत सहजनवा वार्ड 6 तेनुहारी में विधायक प्रदीप शुक्ल द्वारा पानी के टंकी निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने कहा की केंद्र और प्रदेश सरकार आमजन को शुद्धपेय जल मुहैया कराने के लिए जगह जगह पानी की टंकी का निर्माण कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है की घर घर शुद्धपेय जल पहुंचाया जाय। जिसने लोग निराग रहे।

गंदगी के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों का प्रदर्शन

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा तहसील अंतर्गत विकास खंड पिपरीली क्षेत्र स्थित के ग्राम सभा नेवास में गंदगी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे युवा नेता मानवेंद्र शाही ने बताया कि इस समय पुरे ग्राम सभा में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है गंदगी के ढेर से उठ रही बदबू से लोगों का घरो से निकलना मुश्किल हो गया है। नेवास के मुस्लिम मोहल्ले में गंदगी की वजह से तो लोग और परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी केवल कागजों में सफाई करते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। लोगों का दुर्गन्ध के बीच सांस लेना मुश्किल है। नालिया सिल्ट से जाम हो चुकी हैं। इस अवसर पर सोनु अहमद, दिलीप अहमद, मो. रबड़े, युनुस खान, कमालउद्दीन अहमद, शिवेंद्र सिंह, उदयराज सिंह, हरिशंकर यादव, इकबाल अहमद, गौरी लोहार, संतोष भारती, नौसाद, आजाद अहमद, आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में पिपरीली ब्लॉक के एडिओ पंचायत अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, दोषी सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और समस्या से निजात दिलाई जाएगी।



होली भाईचारे का त्योहार, गले मिलकर आपसी मतभेदों को भुलाये -एसपी नार्थ

अमन लेखनी समाचार

सहजनवा गोरखपुर। होली के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव हरपुर बुदहट थाने पर थाना अंतर्गत सभी ग्राम चौकीदारों के साथ शांति व्यवस्था बनाये रखने व अराजक तत्वों के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में कहा कि होलिका दहन को लेकर अगर किसी गांव में कोई वाद विवाद है तो उसकी सूचना पुलिस को उपलब्ध करावें। अगर किसी गांवों से शिकायत मिली कि रात के समय शरारती तत्व घरों में मटक आदि में कीचड़ भरकर धरों में गंदगी कर रहे हैं तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए किसी भी गांव में



छप्पर आदि उतारकर जानबूझकर नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की चुपचाप तरीके से पुलिस को अवगत करावें। जिन्हें सबक सिखाया जा सके। होली पर परचून की दुकानों पर शराब बिक्री को लेकर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को लगाया जावेगा। जो

गांवों में भ्रमण कर निगरानी रखेंगे। होली का त्योहार प्यार के साथ मनावें। अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। क्यों की यह भाईचारे का त्योहार है। गले मिलकर आपसी मतभेदों को भुलाया जाता है।

पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



अमन लेखनी समाचार

बकेवर, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील अंतर्गत देवमई पुलिस चौकी प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को थाना बकेवर से

उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह प्रभारी चौकी देवमई मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 23/2024 धारा 376(3)/504/506 बादविब 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजाराम पुत्र उजागर पासवान निवासी ग्राम दुंदुयूर मजरे रुसी थाना बकेवर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 64 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

डीएम एसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई आयोजित



अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी फतेहपुर सी. इंद्रमती व पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा पीस कमेटी के सदस्यों/धर्मगुरुओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी साथ ही जिले में आगामी लौहार होली, रमजान, गुड फ्राइडे आदि को शांतिपूर्ण ढंग से सम्मन कराने की अपील की।

जिलाधिकारी सी. इंद्रमती ने आमजनमानस की सुविधा के लिए साफ-सफाई सहित अन्य सभी जरूरी तैयारियों के सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद सहित सम्बन्धित को आवश्यक दिशा इनिर्देश दिये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी फतेहपुर सदस्यों/धर्मगुरुओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी साथ ही जिले में आगामी लौहार होली, रमजान, गुड फ्राइडे आदि को शांतिपूर्ण ढंग से सम्मन कराने की अपील की।

जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़

गोली लगने से घायल हुआ आरोपी बदमाश, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती

अमन लेखनी समाचार

जौनपुर, जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात सुजानगंज में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि यह मुठभेड़ सुजानगंज, महाराजगंज और बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम के अभियान में हुआ। जौनपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में देर रात गौ तस्कर अब्दुल उर्फ सचिन नट ग्राम चोरी थाना जलालपुर का निवासी को पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस की मुखबिर पर थाना सुजानगंज, महाराजगंज और बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम सुजागंज के मटियाहो मोड़ के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच गौ तस्कर अब्दुल आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने पर तस्कर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली तस्कर के पैर में लग गई। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया।



सी.ए.ए लागू होने पर मेरठ में जश्न

भाजपाइयों ने बांटे लड्डू, 30 थानों की पुलिस फोर्स भी अलर्ट, पहिए मेरठवासियों ने नए कानून पर क्या कहा

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। मेरठ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर सीएए लागू होने का जश्न मनाया है। प्रहलाद नगर, ब्रहमपुरी सहित अन्य इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता लड्डू बांटकर सीएए लागू होने की खुशी मना रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स तैनात की गई है। मेरठ के सभी थानों की फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने पुलिस बल के साथ स्वयं मार्च निकाला है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लेकर मार्च निकाला। पीएम मोदी, सीएम योगी के जिंदाबाद के नारे लगाए। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि मेरठ के 20



अति संवेदनशील इलाकों में विशेष तौर पर पुलिसबल तैनात किया गया है। चप्पे, चप्पे पर पुलिस की नजर है। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की असामाजिकता फैलाएगा या शांतिभंग करेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता है। इसे लेकर किसी भी

प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए। अगर किसी ने अफवाह फैलाई या शांति भंग की तो मुकदमा पंजीकृत कर कठोर एक्शन लिया जाएगा। मेरठ में 20 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर पुलिसबल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एक्टिव है और जिसने भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा।

होली के पावन पर्व से पूर्व बलरामपुर नगर पालिका परिषद में मीटिंग का आयोजन

होलिका दहन स्थलों को 6 कुंठल लकड़ी उपलब्ध कराया जायेगी :अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू

अमन लेखनी समाचार

बलरामपुर। आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के द्वारा होली पर्व से पूर्व होली कमेटीयों के पदाधिकारियों तथा गणनाथ नागरिकों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई होली पर्व में सफाई पानी, पथ प्रकाश आदि व्यवस्थाओं किए जाने हेतु सुझाव प्राप्त किए गए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलरामपुर धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा बताया गया कि नगर के सभी होलिका स्थलों के आस-पास सफाई एवं चूने का छिड़काव कराया जाएगा जिसमें नगर के सभी होलिका स्थलों पर 6 कुंठल लकड़ी पालिका द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी नगर के



मुख्य मार्गों तथा अन्य स्थानों पर पालिका में उपलब्ध संसाधनों से पथ प्रकाश व्यवस्था कराई जा रही है विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर होली पर्व में मुख्य मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने होली पर्व के पूर्व आयोजित बैठक में कहा

कि होली प्यार आपसी सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है इस त्यौहार को हम लोग को मिल जुल कर शान्ति पूर्ण रूप से मनाएं यदि कोई व्यक्ति रंगों से परहेज करता है तो किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं कोई ऐसा कार्य किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे नगर में हमेशा

सभी पर्व सभी धर्म के लोग प्रेम मोहब्बत से मनाते हैं कार्यक्रम सभा की अध्यक्षता राजकुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, मुख्य अतिथि बृजानंद जी महाराज, बाबू मंगल प्रसाद, राज बिहारी शुक्ला रघुनाथ प्रसाद शुक्ला, डॉक्टर देवेश चंद्र श्रीवास्तव, भाजपा मीडिया प्रभारी डी पी सिंह बैस, सरदार प्रितपाल सिंह, रघुनाथ अग्रवाल, सोनू गिरी, अविनाश मिश्रा, संजय गुप्ता कमलपुरी कृष्ण गोपाल गुप्ता, डॉ विमल चंद्र त्रिपाठी, राधेश्याम मिश्र एडवोकेट अमरीश शुक्ल, सुनील कसेरा अजय श्रीवास्तव आदि लोगों को होलिका महोत्सव समिति के पदाधिकारी होली कमेटी के पदाधिकारियों का माल्यापण अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने समस्त सभासद गणों द्वारा माल्यापण एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत अभिनंदन किया

गया कार्यक्रम का संचालन संजय शुक्ला ने किया इस अवसर पर सभासद व प्रतिनिधि मे विनोद गिरी, सुभाष पाठक, मनोज कुमार चौरसिया, सुशील कुमार साहू आनंद किशोर गुप्ता चिंदू, मनोज यादव, सिद्धार्थ साहू, राधवेंद्र कान्त सिंह, नंदलाल तिवारी, सदीप मिश्रा अक्षय शुक्ला, मनोज साहू मोहम्मद कुमैल रिकू खलीकुर रहमान, मोइनूदीन सिद्धीकी, शोबू खान, शरीफ उर्फ सब्बर आदि सभासद प्रतिनिधि व नगर पालिका परिषद के कर्मचारी मे कर अधीक्षक साबना सिंह हर्षित कुमार मिश्र, नागेंद्र आर्य अरविंद सिंह, अशोक शुक्ला, करसमाहता रवीन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीकांत पांडे गौरी शंकर सिंह, राम नारायण राजेश रत्न, अजय कुमार पांडेय अतीक अशोक मिश्र विजय कुमार आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे

अमन लेखनी समाचार

बलरामपुर। गैसडी में उज्ज्वला गैस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार की योजना के तहत पत्रों को सरकार के योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 58 लोकसभा क्षेत्र सांसद प्रत्याशी सकेत मिश्रा का कार्यकताओं ने माल्यापण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सकेत मिश्रा ने कहा कि उज्ज्वला गैस वितरण के माध्यम से भाजपा सरकार ने उन लोगों के घर में गैस की व्यवस्था की है जो लोग गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। गैस कनेक्शन मिलने से उन लाभार्थियों को धुएं व चूल्हे से निजात मिली है। भाजपा सरकार की देन है कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए एकजुट होना होगा। ताकि जो शेष कर रहे हों उसे भी भाजपा सरकार पूरा कर दे। मुख्य अतिथि सकेत मिश्रा ने 16 परिवारों को



उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण किया गैसडी पंचायत अध्यक्ष प्रिंस वर्मा ने कहा कि 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के प्रत्याशी सकेत मिश्रा को क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग एकजुट होकर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाए। कहा कि भाजपा सरकार ने ही महिलाओं का सम्मान है तथा अपराध एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। ब्लॉक

प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि गैसडी से हम लोग एकजुट होकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर इंडियन गैस संबंधक आदर्श उपाध्याय, सभासद रामप्रताप गुप्ता, लालजी, सबूर अहमद, सुनील पटेल, रामदास मोर्य, शिवमंगल गुप्ता, परमजीत सिंह, रुविंद्र जायसवाल, रामराज पांडेय, मुन्ना सोनी, नीलम पांडेय रीता जी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य ने वर वधु को दिया आशीर्वाद

अमन लेखनी समाचार/शिवम सिंह

कुरारा, हमीरपुर। स्थानीय गेस्ट हाउस में सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सभाजवादी पार्टी पूर्व चेयरमैन माया बाल्मीकि के आशीर्वाद समारोह एवम प्रीति भोज कार्यक्रम में सभा कार्यकताओं व राज्य निगरानी समिति के सदस्य राजू बाल्मीकि मौजूद रहे।

कस्बा कुरारा के गेस्ट हाउस में आशीर्वाद समारोह एवम प्रीति भोज कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य राजू बाल्मीकि ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर वर वधु को आशीर्वाद दिया इसके अलावा पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश किशन लाल सुदर्शन, रामप्रकाश प्रजापति पूर्व प्रत्याशी सपा, जिलाध्यक्ष सपा इंदरेश खान, मुन्नी लाल निखाद प्रदेश सचिव, शिवशरण यादव, नंदकिशोर शिवहरे, राजेश श्रीवास एडवोकेट, बलवीर साहू रामनारायण यादव, सुखलाल प्रजापति, नीरज कश्यप, छेदा लाल बाल्मीकि प्रधान खरोंज, नीलम यादव जिलाध्यक्ष

महिला सभा सपा, सुरेंद्र यादव, राजू यादव, डी डी सुमन, पप्पू सागर, बबलू खोटे, मुन्ना हजारीया, आदि सहित राजनीतिक एवम सामाजिक लोग मौजूद रहे।

भूसा घर के निर्माण में ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप

हमीरपुर। मौदहा विकास खंड क्षेत्र के खेरी गांव ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणधीन भूसा घर में मानक के मुताबिक कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। मौदहा विकास खंड क्षेत्र के खेरी गांव में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माणधीन भूसा घर में मौरम के स्थान पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तथा तीन नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भूसा घर के निर्माण में अनियमितता की जा रही है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग खंड विकास अधिकारी से की है।

एमएलके कॉलेज में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन

अमन लेखनी समाचार

बलरामपुर। एम एल के पी जी कॉलेज सभागार में भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुदानित एम एल के पी जी कॉलेज बलरामपुर तथा महाविद्यालय के बीएड एवं शिक्षाशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को एकदिवसीय जगद्गुरु श्री शंकराचार्य व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला में वक्ताओं ने जगद्गुरु श्री शंकराचार्य के दर्शन एवं जीवन कार्य में संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। व्याख्यान माला का शुभारंभ मुख्य व्याख्याता प्रो० द्वारकानाथ वरिष्ठ आचार्य एवं पूर्व विद्यागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग एम एल के कॉलेज डॉ माधवराज द्विवेदी, डॉ श्रीनिवास मिश्र सहायक आचार्य दर्शनशास्त्र देवरिया, कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रो० जे पी पाण्डेय, आई व्ही ए सी समन्वयक प्रो० तबस्सुम फरखी, संयोजक प्रो० राधवेंद्र सिंह, सह संयोजक डॉ दिनेश मोर्य, आयोजन सचिव प्रो श्रीप्रकाश



मिश्र ने दीप प्रज्वलित एव मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापण करके किया। इसके पश्चात बीएड की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर व्याख्यान माला की औपचारिक शुरुआत की। उपस्थित छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए प्रो द्वारकानाथ ने जगद्गुरु श्री शंकराचार्य के आध्यात्मिक एवं भाषाई एकता के वाहक विषय के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि ईश्वर सर्वत्र है, वह सभी में व्याप्त है। शंकराचार्य धार्मिक आकाश के चमकते सितारे होने के साथ साथ विश्वमानव थे। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में संपूर्ण भारतवर्ष का तीन बार पैदल भ्रमण कर बखूबी समझा और सतत साधना के बल पर प्रत्यक्ष अनुभव किया था। कदाचित्त यही कारण रहा कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के स्थाई, मान्य एवं व्यावहारिक सूत्र देने में सफल रहे।

पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक राष्ट्र को एकता एवं अखंडता के सूत्र में पिरोने में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। डॉ माधवराज द्विवेदी ने भारत की एकता और एकात्मता में जगद्गुरु श्री शंकराचार्य के योगदान को बताया। डॉ श्रीनिवास मिश्र ने एकात्म मानववाद को समझाते हुए कहा कि मानव अंधेद नहीं है। भारतीय ज्ञान परम्परा वैश्विक परंपरा है, एकत्व व अखंड परंपरा है। अद्वैतवाद पर ही चलकर विश्वगुरु बना जा सकता है। व्याख्यान माला के अध्यक्ष प्राचार्य प्रो० पाण्डेय ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की संभ्रुता जन में निहित है, यह राज्य (स्टेट) में होकर धर्म नहीं आया और संस्कृति में है। ध्यान रहे कि भारत के लिए धर्म कर्तव्य-बोध या आचरणगत सदाचार है। एकता एवं अखंडता के सूत्र व तत्त्व हमने राज्य एवं राजनीति में नहीं, अपितु धर्म, अध्यात्म एवं

संस्कृति में खोजे और पाए हैं। धर्म एवं संस्कृति ही हमारी चेतना को झंकृत करती है। यही हमारी प्रेरणा के अजस्र स्रोत हैं। इसीलिए हमारे यहां आम धारणा है कि धर्म व संस्कृति जोड़ती हैं, राजनीति तोड़ती हैं। आयोजन सचिव प्रो० श्रीप्रकाश मिश्र ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। सह आयोजन सचिव डॉ राम रहीस ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया। व्याख्यान माला का संचालन समन्वय सह सचिव महाविद्यालय के एसीएसिएट एन सी सी ऑफिसर लेफ्टिनेंट (डॉ) देवेन्द्र कुमार चौहान ने किया। इसके पूर्व प्राचार्य, संयोजक व आयोजन सचिव के द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेटकर सम्मानित किया गया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रो० अरुण कुमार सिंह, प्रो० पी सी गिरी, प्रो० मोहिउद्दीन अंसारी, प्रो० वीणा सिंह, प्रो० रेखा विश्वकर्मा, डॉ विमल प्रकाश, डॉ तारिक कबीर, डॉ प्रखर त्रिपाठी, डॉ आजाद प्रताप सिंह, डॉ सद्गुरु प्रकाश, डॉ आलोक शुक्ल, डॉ आशीष लाल, डॉ एस के त्रिपाठी, डॉ अनुज सिंह, सीमा सिन्हा, प्रतीची सिंह, श्रीनारायण सिंह, सीमा श्रीवास्तव, सीमा पांडेय, अविनाश मिश्र सहित कई लोग मौजूद रहे।

भाजपा पार्टी द्वारा कुरारा मंडल की कार्यशाला का हुआ आयोजन



अमन लेखनी समाचार/शिवम सिंह


कुरारा, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी मंडल कुरारा की कार्यशाला का आयोजन ब्लाक मीटिंग हॉल कुरारा में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक रहे मण्डल अध्यक्ष मोहन कुशवाहा की अध्यक्षता में ब्लाक सभागार में भाजपा की कार्यशाला संपन्न हुई जिसमें जिलाध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को गांव गांव जाकर लाभार्थी संपर्क आभियान में जुटने के निर्देश दिए तथा केद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए

चुनाव संबंधी सभी कार्यों को समय से पूरा करने का आह्वान किया। उक्त बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी, ब्लाक प्रमुख आशीष पालीवाल जी, नगर पंचायत चेयरमैन श्रीमती आशारानी कबीर, जिला कोषाध्यक्ष ज्ञानवेंद कुशवाहा, हरनारायण हिन्दू, कामता कुशवाहा, मण्डल कुरारा के अध्यक्ष मोहन कुशवाहा, पंकज राजावात, राहुल द्विवेदी, रोहित निपाद, हरिओम सविता, दिनेश द्विवेदी, कालका प्रसाद, रवि गुप्ता सहित एक सैकड़ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया के वायरल वीडियो में कुर्सी पर बैठा नजर आया कुत्ता

अमन लेखनी समाचार/शिवम सिंह

कुरारा। बद्दहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरों तो समय समय पर अखबार व सोशल मीडिया में प्रकाशित होती रहती जो आम जनमानस को बद्दहाल स्वास्थ्य सेवाओं से रूबरू करवाती है। ऐसी ही एक फोटो कुरारा सीएचसी की सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी व्हीलचेयर पर एक कुत्ता बैठे नजर आ रहा है। बता दें कि कुरारा सीएचसी सहित क्षेत्र में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था चौपट है कहीं डॉक्टरों की तैनाती नहीं है तो कहीं तैनाती के बाद भी डॉक्टर जाते नहीं हैं। इसी तरह से अस्पताल का ताला तो खुला रहता है पर व्यवस्थाएं देखने वाले नदारद रहते हैं। तभी तो देखरेख के अभाव में अस्पताल में पड़ी कुर्सियों में तमाम वैकटीरिया व वायरस लिए आवारा कुत्ते आराम करते हैं। वही अगर कोई मरीज पहुंचा



तो कुत्तों को भगाकर बिना कुर्सी के सफाई किये डायरेक्ट मरीज को बिठाकर इमरजेंसी तक पहुंचाया दिया जाता है। इसका भी ख्याल नहीं किया जाता कि कुत्ता खुजली वाला था या कोई वाला। वायरल फोटो की जागरण पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी सुनील जायसवाल का कहना है कि अस्पताल परिसर में कुत्तों की अधिकता है जिसके चलते कोई कुत्ता बैठ गया होगा। बाकी वार्ड ब्याव निगरानी में रहता है।

खुले आम मांस की बिक्री पर रोकथाम लगाना मुश्किल

आखिर कैसे ये लोग सार्वजनिक मांस की दुकान का संचालन कर लेते हैं

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर. उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद के जलानाबाद से मुगल रोड शकूरा इंडियन पेट्रोल पंप के नजदीक मांस की खुलेआम हो रही बिक्री जब की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश था की कोई भी मांस विक्रेता सार्वजनिक दुकान का संचालन नहीं कर सकता तो फिर यह दुकान विक्रेता अंसार अहमद शकूरा किसके संरक्षण में दुकान का संचालन कर रहा है आखिर कब होगी कार्यवाही या फिर विभाग यहीं चुप्पी साधे रहेगा इन शर्तों को करना होगा पूरा 1. मीट की दुकान धार्मिक स्थल से

50 मीटर की दूरी पर हो। धार्मिक स्थल के मेनगेट से 100 मीटर की दूरी हो। 2. मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नहीं होगी। 3. मीट दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे। 4. मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। 5. मीट की क्वॉलिटी पशु डॉक्टर से प्रमाणित करवानी होगी। 6. शहरी इलाकों में सर्किल ऑफिसर, नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी। 7. ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए एनओसी देंगे। 8. मीट दुकानदार बीमार या प्रेगनेंट जानवर नहीं काट सकेंगे। 9. मीट दुकानदार हर छह महीने

पर अपनी दुकान की सफेदी करवाएंगे। 10. मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे। 11. मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी। 12. बूचड़खानों से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा। 13. मीट इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खानों से ढोया जाए। 14. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा। 15. मीट की दुकान में गोजर जरूरी होगा। 16. दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग प्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर न आए। 17. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

गर्मी के प्रारंभ होते ही विगत वर्ष की तरह किल्लत ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को दिया लिखित प्रार्थना पत्र

पिछले दो महीने से पानी की टंकी खराब होने पर आम जनमानस में मची त्राहि त्राहि

अमन लेखनी समाचार

अमौली, फतेहपुर। जनपद में ग्रीष्म ऋतु के आते ही पूर्व काल की तरह पानी की किल्लत प्रारंभ हो गई जनपद के अमौली विकासखंड कस्बे अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर गांव मदर्दी में बनी पानी टंकी विगत दो माह से ध्वस्त पड़ी है ग्रामीणों ने काफी दिन समस्याओं को झेलते हुए आहत होकर खंड विकास अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा ग्रामीण आलोक कुमार रामदेवी सोनम दिनेश अतुल श्यामकली इत्यादि ने लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि विगत दो महीने से पानी टंकी शुन्य स्थिति में पड़ी हुई है पीने के पानी के साथ-साथ दैनिक दिनचर्या जानवरों के पीने की समस्या आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न



हो रही है गांव में स्थापित पानी टंकी लगभग 30 वर्ष पुरानी बताई गई गांव के नागरिक पानी की समस्या से जूझते हुए खेतों में बने नलकूप जंगलों में लगे ट्यूबवेल गांव के समरसेबल इत्यादि का सहारा लेकर जीवन यापन कर रहे हैं वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वास्तव में काफी दिनों से पानी टंकी में समस्या आ रही है परंतु इसके साथ-

साथ जानकारी लेने पर विभागीय अधिकारियों ने बताया की अधिकांश ग्रामीणों ने पेयजल का शुल्क बिल नहीं जमा किया जिससे बजट में समस्या आ रही है वहीं खंड विकास अधिकारी ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक हुई सम्पन्न

अमन लेखनी समाचार/हेमन्त यादव

गरोटा, झांसी। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के तत्वाधान में ब्लॉक गुरसरांय व बामौर के प्रधानों की एक विशेष बैठक महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि झारखण्ड गुढ़ा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष प्रदीप टाडा ने की। बैठक में ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों में आ रही समस्याओं तथा संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदीप टाडा ने अपने उद्घोषण में कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है जब संगठन मजबूत होगा तभी समस्याओं का समाधान आसान होगा उन्होंने कहा



कि प्रधानों का उत्पीड़न किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में दीपक मिश्रा प्रधान लहचूरा, अनुज द्विवेदी प्रधान नागर, अखलेश सिंह प्रधान चकारा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं का समाधान आसानी से न होने पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें धीरू राजा एण्ड पार्टी द्वारा शानदार भजनों

की प्रस्तुति से उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो गये। इस मौके पर प्रतापसिंह राजपूत एवनी, विदेश राजपूत निमगहन, मनोज यादव खडौरा, रामप्रसाद बरौटा, नीशु दुबे इमलौटा, नीतीश सहपुरा, रामसहोदर यादव लिधौरा, सरमन लाल सिजारी, निपान, मैंगव, अस्ता प्रधानों समेत गुरसरांय व बामौर के बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक चन्द्रभान सिंह परमार प्रधान गुढ़ा ने सभी का आभार प्रकट किया।

आनंद प्रकाश को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला महासचिव बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी



अमन लेखनी समाचार/हेमन्त यादव

गरोटा, झांसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उतम पटेल की संस्तुति पर आनंद प्रकाश यादव उर्फ छोटू को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड झांसी को जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश के मनोनयन की सूचना मिलने पर पार्टी

कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर शैलेंद्र यादव हीरानगर, अंकित माते, राजा जायसवाल, सत्येंद्र मुखिया, शाहरुख खान, दीपू यादव, सुशील गुप्ता, रामकुमार जायसवाल, रामबाबू सोनी, हरिहर यादव, प्रिंस आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक



अमन लेखनी समाचार

बलरामपुर। आज दिनांक 14 मार्च 2024 को महारानी लाल कुंवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलरामपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के सेवक सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान हेतु जागरूक और प्रेरित किया गया इस रैली का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर से हुआ जो पूर्व टोला, बड़ा पुल और मेजर

चौराहा होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर में आकर संपन्न हुयी इस रैली का नेतृत्व एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी डॉ आलोक कुमार शुक्ला, डॉ अमिका सिंह एवं डॉ जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया रैली में स्वयंसेवकों द्वारा वोटों की जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे गए और प्ले कार्ड बनाए गए जिन्हें लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई

अमन लेखनी (हिन्दी दैनिक)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती अखिलेश सिंह द्वारा अवध एक्सप्रेस प्रकाशन, 434, सिविल लाइन, जेल रोड, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से मुद्रित और ग्राम व पोस्ट-बनी, थाना- बन्धारा, लखनऊ-226401 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

सम्पादक - श्रीमती अखिलेश सिंह

समाचार सम्पादक - रुद्र प्रताप सिंह

समाचार से संबंधित सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

मो. - 9838159555, 9935457982

E-mail address amanlekhaninews@gmail.com



डॉक्टर अरपीत सिंह

डॉ. आर. पी. सिंह सीनियर फिजिशियन, एनसीआर

जब चेहरे पर नजर आए डलनेस

मेरी उम्र 33 वर्ष है। कुछ दिनों से मेरे चेहरे की चमक डल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? डाइट में क्या-क्या शामिल करूं, जिससे चेहरे की डलनेस कम हो? कृपया सजेस्ट करें?

—रंजीत, रोहतक
आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स शामिल करें। साथ ही नियमित रूप में मौसमी फलों का सेवन भी जरूर करें। दोपहर के खाने में सलाद और दही जरूर लें। अपनी डाइट में फाइबर अधिक शामिल करें। इस तरह कुछ समय तक न्यूट्रिशियस डाइट लेने से चेहरे पर चमक वापस आ जाएगी।



मेरी उम्र 46 वर्ष है। मुझे हल्का डायबिटीज है। क्या मुझे बिल्कुल मीठा नहीं लेना चाहिए या फल ले सकता हूँ? लोगों के सुझाव ने भ्रमित कर दिया है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें।

—भवेश, रायपुर
जैसा आप बता रहे हैं कि आपको हल्की डायबिटीज है, इसलिए आप खान-पान में खास सावधानी बरतें, ताकि डायबिटीज ज्यादा ना बढ़े। खाने में आलू और चावल का सेवन कम से कम मात्रा में करें। फल में आप सेब खा सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठे फल ना खाएं। अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, साथ ही नियमित रूप में सुबह-शाम आप सैर जरूर करें। इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी।

मेरी उम्र 52 वर्ष है। ग्रीन टी पीने के कई फायदे सुनता-पढ़ता हूँ। क्या सामान्य चाय के बजाय इसे पीना फायदेमंद है? यह भी बताएं कि ग्रीन टी दिन में कितनी बार पी सकते हैं?

—दिलजीत, भोपाल
जी बिल्कुल, सामान्य दूध वाली चाय के मुकाबले ग्रीन टी पीना फायदेमंद होता है। यह स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभदायक है, इसके सेवन से ताजगी बढ़ती है, पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। इसलिए आप ग्रीन टी पी सकते हैं। एक दिन में दो से तीन बार ग्रीन टी पीना लाभदायक रहेगा।

मेरी उम्र 39 वर्ष है। मुझे डिनर के बाद मीठा खाने का मन करता है। डिनर में डेजर्ट्स में क्या ले सकता हूँ, जिससे वजन ना बढ़े और जो हेल्दी भी हो?

—आकाश, जबलपुर
आप रात में अगर डिनर के बाद शुगर से बी

प्रस्तुति: रिचा पांडे



स्पेशल: वर्ल्ड किडनी डे

डॉक्टर एडवाइस

कि डनी इंसानी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। किडनी रोगों की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ किडनी फेलियर के बढ़ते मामलों के कारण किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण अंग के महत्व को समझने और इसकी केयर के प्रति अवेयर करने के लिए हर साल मार्च के महीने में दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य, किडनी के शरीर में उल्लेखनीय कार्यों और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है।

किडनी रोग के कारण-लक्षण

किडनी में तरह-तरह के रोग होने के कारण और लक्षण क्या-क्या होते हैं, इस बारे में पूछने पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली में डायरेक्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी डॉ. एल.के. झा बताते हैं, 'किडनी के रोगग्रस्त होने के लक्षण हैं- बार-बार यूरिन आना, यूरिन पास करते समय दर्द या तेज जलन होना, यूरिन के साथ ब्लड आना, घुटनों, पैरों और अंगुलियों में सूजन होना, आंखों के आस-पास सूजन होना, कुछ भी खाने की इच्छा ना होना, शरीर की मांसपेशियों में दर्द महसूस होना आदि। जहां तक इसके कारणों का सवाल है तो घुटनों, पैरों और अंगुलियों में सूजन की वजह शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ना होता है। इस वजह से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। इससे किडनी, यूरिक एसिड को फिल्टर करने में असमर्थ होने लगती है। अन्य कारणों में यूटीआई होना, किडनी स्टोन होना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, महिलाओं में गर्भावस्था, किसी दवा या बीमारी के कारण शरीर की इम्यूनोटी का कमजोर हो जाना और खराब लाइफस्टाइल आदि किडनी रोगों के कारण हो सकते हैं। ऐसे में आपको किडनी रोगों के लक्षणों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और बचाव के उपायों को अपनाना चाहिए।'

किडनी रोगों से बचाव के तरीके

किडनी रोगों से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस बारे में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में चीफ एंड सीनियर कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. राजेश अग्रवाल बताते हैं, 'किडनी रोगों से बचाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे- पेन किलर कम से कम लें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए पेन किलर ना लें, मोटापे पर कंट्रोल करें, किडनी की समस्या से संबंधित अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो समय-समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट (केएफटी) करवाते रहें। साथ ही डॉक्टर से समय-समय पर परामर्श लेते रहें। शरीर को अधिक से अधिक मात्रा



सचदेव कहते हैं, 'डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को किडनी रोगों से बचाव के लिए अपने शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी रखनी चाहिए। दर्द निवारक दवाइयों का अधिक सेवन भी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए



में हाइड्रेट रखने से किडनी को टॉक्सिंस निकालने में सहायता मिलती है, इसलिए दिन भर में आपको दो से तीन लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन ना करें, ऐसा करने से आपकी किडनी पर दबाव पड़ता है और उसकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। धूम्रपान और शराब का सेवन भी किडनी की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें।'

इन बातों का भी रखें ध्यान
किडनी रोगों से बचाव पर ही बात करते हुए नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम में डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. सुदीप सिंह सचदेव कहते हैं, 'डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को किडनी रोगों से बचाव के लिए अपने शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी रखनी चाहिए। दर्द निवारक दवाइयों का अधिक सेवन भी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए

इससे भी बचना चाहिए। साथ ही किडनी में किसी भी तरह की समस्या महसूस होने पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने में देर नहीं करना चाहिए।'

डायबिटीज-हाई बीपी से गहरा संबंध

क्रॉनिक किडनी रोग का डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के साथ गहरा संबंध है। वर्ल्ड किडनी डे, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों की क्रॉनिक किडनी रोग के प्रति जरूरी जांच को भी प्रोत्साहित करता है। इस दिन को मनाने का प्रयास यह रहता है कि अधिक से अधिक लोग किडनी की हेल्थ के बारे में जागरूक रहें। *

प्रस्तुति: सेहत फीचर्स

उपयोगी औषधि

गो खरू या गोशुर् एक छोटा सा क्षुप (झाड़ीनुमा पौधा) है। यह जमीन पर फैलता है और जब मानसूनी बारिश होती है, यह अपने आप उग आता है। यह एक जड़ी-बूटी है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने के लिए रामबाण के तौर पर किया जाता है। गोखरू का फल, पत्ता और तना यानी इसके करीब-करीब सभी हिस्से जगरदस्त आयुर्वेदिक औषधि का भंडार होते हैं। इस पौधे की ऊंचाई कम होती है, इसलिए इसमें कई टेढ़े-मेढ़े तने निकले होते हैं। ये ऐसे भू-भाग में उगते हैं, जहां खूब झाड़ियाँ होती हैं। क्षुप के बीज को गोखरू कहते हैं और इन्हें बाजार में इसी नाम से खरीदा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस है।

किडनी रोगों में कारगर है गोखरू

गोखरू का तरह-तरह की बीमारियों में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। गोखरू, आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसलिए ये बाजार में काफी महंगे भी बिकते हैं। गोखरू के औषधीय सेवन से महिला और पुरुषों में बांझपन की समस्या दूर होती है। इस औषधि में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिनमें क्वेरसेटिन, कैफेरोल, सैपोनिन, सोडियम, पोटेशियम मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, कैल्शियम और आवरण का भी यह अच्छा

स्रोत है। गोखरू सीने में दर्द, एगिमा और बड़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के इलाज में भी कारगर है। इन तमाम वजहों के चलते इसे हेल्दी हर्ब में शुमार किया जाता है। मूत्र संबंधी रोगों और किडनी संबंधी रोगों में इसका औषधीय सेवन बहुत कारगर होता है। आयुर्वेद के अनुसार गोखरू में पोटेशियम और नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है और इसमें मूत्रवर्धक गुण भी पाए जाते हैं। यह किडनी की पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में मदद करता है। इस तरह से देखा जाए तो गोखरू का नियमित सेवन किडनी की पथरी और किडनी से जुड़ी अन्य बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद के दशमूल नामक दस औषधियों का जो समूह है, उसमें एक प्रमुख औषधि के रूप में गोखरू की भी मौजूदगी है। इसका इस्तेमाल क्वाथ और चूर्ण के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर जड़ी बूटी है। औषधीय इस्तेमाल के अलावा गोखरू का इस्तेमाल सौंदर्य सामग्री के रूप में भी किया जाता है और इसे स्क्विट व्बिन के रूप में भी बनाकर खाया जाता है। ध्यान रहे, किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल अपने आप नहीं करना चाहिए। हमेशा इसे किसी योग्य-अनुभवी आयुर्वेदाचार्य या वैद्य की सलाह पर ही सेवन किया जाना चाहिए वरना इससे कई समस्याएं भी हो सकती हैं। *

—रेखा देशराज

फिटनेस सीक्रेट / राहुल जेटवा

मेरे लिए फुटबॉल खेलना जीने का एक तरीका है

आजकल की बिजी वर्कस्टाइल में तंदुरुस्ती पर ध्यान देना, उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी वाला कोई खेल खेलना जरूरी है। खेलों से हमारी शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, साथ ही इससे मन का तनाव दूर होता है, मजा आता है और सामाजिक जुड़ाव बनता है। एंडटीवी के सीरियल 'अटल' में अवध बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभा रहे राहुल



जेटवा भी स्वस्थ शरीर और जीवनशैली में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने पसंदीदा खेल और तंदुरुस्ती के लिए इसके शारीरिक और मानसिक लाभ के बारे में राहुल बताते हैं, 'मेरा सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। मेरे लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह मुझे स्थिर रखता है और ऊर्जा से भर देता है। इसे चाहे बीच पर मस्ती के लिए खेलें या मैदान पर दोस्तों के



साथ। फुटबॉल खेलने के कारण मैं दिनभर सक्रिय रहता हूँ, इससे शरीर लचीला बनता है

और मेरा स्टैमिना बढ़ता है। आज के दौर में दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग स्मार्टफोन, टैब या टीवी स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, इनएक्टिव बने रहते हैं, इससे आलस से भर जाते हैं। ऐसे में बॉल का पीछा करने का रोमांच सबसे बढ़िया होता है। इसका मतलब सिर्फ मैच जीतने से नहीं है, यह अच्छी हेल्थ और आपसी बॉन्डिंग को बढ़ावा देकर जिंदगी में जीतना सिखाता है। फुटबॉल में टीम के साथ काम करने से दोस्ती निभाने की प्रेरणा मिलती है। हर किक और दौड़ मुझे जोश से भर देती है। मुझे पता रहता है कि यह मैं अपने शरीर और दिमाग की सेहत के लिए कर रहा हूँ। इससे याद रहता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सक्रिय रहने, आउटडोर जाने, किसी-किसी और दोस्ती के साथ खूबसूरत पल संजोने में है। *

प्रस्तुति: सेहत फीचर्स

अवेयरनेस

भा रत में विभिन्न बीमारियों से होने वाली मौतों में लगभग एक तिहाई मौतें हृदय रोगों की वजह से होती हैं। पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीयों को अपनी सामान्य आयु या कहे वृद्धावस्था से दस साल पहले हृदय रोग प्रभावित करने लगते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल इस समस्या का कारण है, जिससे हृदय रोगों और उससे जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ रहा है। बता दें कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (एएससीवीडी) एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है, जहां धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमाता है, जिससे प्लाक की निर्माण होने लगता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जीवनशैली में आए बदलावों और अन्य कारणों से अब युवाओं को भी इसका खतरा बढ़ रहा है।

रंगस्टर्स रखें हार्ट हेल्थ का खयाल

सेहतमंद जीवन के लिए युवाओं को कोलेस्ट्रॉल की भूमिका और उसे नियंत्रित करने के बारे में जानना जरूरी है। खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल-सी) के बारे में। इसलिए, युवाओं में जागरूकता फैलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बारे में सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अधिनी मेहता बताते हैं, 'मैं हृदय रोगों से जुड़े खतरों के बारे में जल्द पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच करवाने की सलाह देता हूँ, खासकर युवाओं को। इसका नियंत्रण जागरूकता और नियमित जांच से ही संभव हो सकता है। इससे वे खुद अपने दिल की सेहत का खयाल रख सकते हैं। एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए युवाओं को सक्रिय रहना चाहिए, नियमित जांच करवाना और तनाव नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा युवाओं के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे परिवार के सदस्यों में हृदय रोगों या उससे जुड़ी परेशानियों का भी ध्यान रखें। एएससीवीडी के खतरों के लिए आनुवंशिकता की अहम भूमिका होती है, इसके लिए समय पर उपचार जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री को समझकर और उनका हल निकालकर, युवा जीवनशैली में बदलाव को अच्छी तरह अपना पाएंगे। इससे संभावित खतरों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती

एक समय तक बुजुर्गों में ही हृदय से जुड़े रोग हुआ करते थे। लेकिन हाल के वर्षों में रंगस्टर्स में भी हृदय से जुड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। युवाओं को ये समझना जरूरी है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आप जरूर जानना चाहेंगे।

रंगस्टर्स में बढ़ रहा हार्ट डिजीज का रिस्क



है। नियमित जांच और डॉक्टरों से परामर्श लेते रहने से सेहतमंद हृदय के लिए व्यक्तिगत रूप से उपचार की रणनीति तय कर पाएंगे।'

इन बातों पर करें अमल

युवाओं को एएससीवीडी को नियंत्रित करने और हार्ट हेल्थ के लिए कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की जांच: कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच से रंगस्टर्स अपनी हार्ट हेल्थ का खयाल रख सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में पता चलता रहता है। संतुलित भोजन लें: अपनी डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है। संतुलित आहार लें, बहुत आंखली-स्पाइसी और जंक फूड्स से परहेज करना जरूरी है। रेग्युलर एक्सरसाइज करें: हार्ट हेल्थ के लिए रेग्युलर एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। व्यायाम करने से वेट मैनेजमेंट रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है। *

—सेहत फीचर्स



वैसे तो सभी फल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सभी में कोई जा कोई विशेष गुण होता है, लेकिन विशेष रूप से काले रंग के फल विटामिन, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ऐसे ही कुछ काले फलों के बारे में जानिए।

स्वास्थ्य के लिए लाभकारी काले फल



बीमारियों के लिए फायदेमंद होते हैं। फेफड़े के कैंसर को रोकने में मददगार होते हैं। अल्जाइमर यानी याददाश्त गड़बड़ होने की बीमारी को रोकते हैं। काले अंगूर के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। **काले जामुन** : शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, जिसे काले जामुन खाना पसंद ना हो। बेहद स्वादिष्ट काले जामुन का हर हिस्सा भरपूर पौष्टिक होता है। इसकी गुठली बर की तरह सख्त और ऊपर गुठली में लगी गुदा नरम और रसीला होता है। पेट के मरीजों के लिए जहां जामुन बहुत फायदेमंद होता है,

डाइट

राजकुमार दिनकर
आमतौर पर रंग-रंगिरे फल-सब्जियों के गुणों के बारे में खूब चर्चा होती है। लेकिन कुछ ऐसे फल भी हैं, जो देखने में काले रंग के होते हैं, लेकिन पौष्टिकता और शरीर की इम्यूनोटी के लिए ये काले रंग वाले फल किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। काला सेब : काला सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। सेहत के लिए इसे वाकई हीरा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि काले सेब में हीरे से भी कीमती खूबियाँ होती हैं। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त ढंग से बढ़ाते हैं। यह आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। शरीर के बड़े कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और आवरण को ध्वंशोपित करने में मददगार होता है। इस तरह काला सेब, हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद शानदार माना जाता है। इसमें आयरन, विटामिन-बी12 के साथ भरपूर मात्रा में राइबोफ्लोविन भी पाया जाता है। **काले अंगूर** : वैसे तो हर अंगूर भी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन काले अंगूर का तो कहना ही क्या! इसमें कई तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं। काले अंगूर दिल की